

## 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant Accounting Policies for the year ended March 31, 2018

### 1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणियां, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार की गयी हैं। ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी)के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणाली का अनुपालन किया गया है।

### 2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में वित्तीय विवरणी की तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गयी अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणी को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। भावी परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/संशोधन वर्तमान एवं भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

### 3. निवेश

#### 3.1 वर्गीकरण

बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें:

ए “परिपक्वता तक धारित”(एचटीएम) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।

बी “व्यापार हेतु धारित” (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।

सी “बिक्री हेतु उपलब्ध” (एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं, जो उपरोक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

#### 3.2 अधिग्रहण लागत

निवेश की अधिग्रहण लागत में प्रोत्साहनों एवं प्रारंभिक शुल्क राशि घटाकर है।

#### 3.3 मूल्यांकन का आधार

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हो, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

### 1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

### 2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

### 3 INVESTMENTS

#### 3.1 Classification

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

a “Held to Maturity” (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

b “Held for Trading” (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade.

c “Available for Sale” (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

#### 3.2 Acquisition Cost

Cost of acquisition of Investments is net of incentives and front-end fees.

#### 3.3 Basis of Valuation

Investments classified as “Held to Maturity” are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.



“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बॉण्ड, जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए आरिस्ट वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाण-पत्रों पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है।

संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यहास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) इकाइयों में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए ‘परिपक्वता तक धारित’ संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। संवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे ‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ में अंतरित कर दिया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बाजार भाव पर दर्शाया जाता है।

“व्यापार के लिए धारित” एवं “बिक्री के लिए उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत निवेश, स्क्रिपवार बाजार के रूप में चिन्हित किये जाते हैं और तुलन-पत्र में घोषित परिणामी निवल मूल्यहास यदि कोई हो, को “लाभ एवं हानि खाते” के हिसाब में लिया जाता है, जबकि यदि कोई निवल मूल्यवृद्धि हो तो उसे छोड़ दिया जाता है। तथापि इक्विटी पर रुपांतर रूप में अधिग्रहीत मूल्यहास चाहे वह मानक के रूप में या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, उसे एएफएस श्रेणी के अंतर्गत धारित अन्य प्रतिभूति में मूल्यहास के पेटे ऑफसेट नहीं किया जाता है। हालांकि लिखतों पर रुपांतर रूप में अधिग्रहीत मूल्यहास चाहे वह मानक रूप में हो या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाना चाहिये, यदि कोट किया जाता है या विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) कंपनी के 31 मार्च तक के तत्काल पूर्वगामी वित्त वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार होगी। यदि कंपनी की 31 मार्च तक के तत्काल पूर्वगामी वित्त वर्ष का तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है तो कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का सम्पूर्ण पोर्टफोलियो का मूल्यांकन ₹ 1 के अनुसार किया जाएगा। लिखतों पर डैब्ट के रुपांतर रूप में अधिग्रहीत मूल्यहास को अन्य एएफएस श्रेणियों के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों के मूल्य संवर्धन के पेटे ऑफसेट नहीं किया जाना चाहिये।

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा व्यापार के लिए धारित संवर्ग के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यों के अनुसार रखाव लागत पर किया जाता है।

“व्यापार के लिए धारित” तथा “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए, बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई)/फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें/उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

Investments classified as “Held to Maturity” includes debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank’s investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per Reserve Bank of India guidelines.

Investments classified as “Held for Trading” and “Available for Sale” are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored. However Depreciation on the equity acquired by way of conversion, whether classified as standard or NPA, shall be valued at market value, if quoted, or else at break-up value (without considering the revaluation reserve, if any) as ascertained from the company’s balance sheet as on March 31<sup>st</sup> of the immediate preceding financial year. In case balance sheet as on 31<sup>st</sup> March of the immediate preceding financial year is not available, the entire portfolio of equity shares of the company held by the bank shall be valued at ₹1. Depreciation on instruments acquired by conversion of debts, shall not be offset against the appreciation in any other securities held under the AFS category.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

For the purpose of valuation of quoted investments in “Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां	- "परिपक्वता प्रतिफल" के आधार पर
इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर	- नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार ('पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां), यदि कोई है, को ध्यान में लिए बिना) (12 माह से अधिक पुराना नहीं) ब्रेक अप मूल्य पर अन्यथा ₹ 1/- प्रति कंपनी.
अधिमानी शेयर	- समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर
पीएसयू बांड	- समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर.
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/एन.ए.वी. पर
जोखिम पूंजी	लेखापरीक्षित तुलनपत्र, जो कि 18 माह से ज्यादा पुराना न हो, के अनुसार घोषित एनएवी या अलग-अलग एनएवी. यदि, लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हो तो प्रति वीसीएफ ₹ 1/-.
प्रतिभूति प्राप्तियां	भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप आस्ति पुर्ननिर्माण कम्पनी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य

Government / Approved securities	- on Yield to Maturity basis.
Equity Shares, PSU and Trustee shares	- at break-up value (without considering 'Revaluation Reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	- on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
PSU Bonds	- on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
Units of Mutual Funds	- at the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
Venture Capital	- Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹ 1/- per VCF.
Security Receipts	Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines.

### 3.4 निवेशों का निस्तारण

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारत औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ/हानि लेखा में लिया जाता है तथा "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत आरक्षित खाते में समायोजित की गयी है. एएफएस/एचएफटी श्रेणी में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ हानि खातों में प्रभारित किया जाता है.

- 3.5 निपटान तारीख आधार पर किए गए निवेश के लिए बैंक एकरूप लेखांकन पद्धति अपनाता है.
- 3.6 विदेशी शाखाओं के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा उस देश के दिशा-निर्देशों को, जो भी ज्यादा सख्त हों, का पालन किया गया है. विदेशों में स्थित उन शाखाओं के मामले में जहां पर दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है.
- 3.7 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की जाती है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया जाता है.
- 3.8 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी गयी है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार प्रावधान किया गया है.

### 3.4 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as "Held to Maturity" is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account. Profit/ loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

- 3.5 The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.
- 3.6 In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.
- 3.7 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- 3.8 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.



### 3.9 रेपो / रिवर्स रेपो

बैंक ने रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बतायी गयी एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है. (भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2016-17/एफएमओडी. एमएओजी.नं.116/01.01.001/2016-17 दिनांक 10-11-2016 के अनुरूप चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को शामिल करते हुए रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों को संपार्श्विक उधार/ऋणदान के अंतर्गत माना जाता है जिसमें सहमत शर्तों पर रेपो) का करार किया जाता है. रेपो के अन्तर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है. लागत एवं राजस्व को ऋण ब्याज व्यय/आय को यथास्थिति लेखांकित किया जाता है.

### 3.10 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप, विनिमय ट्रेड्ड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप्स और विनिमय ट्रेड्ड मुद्रा फ्यूचर हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (ट्रेडिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं. व्यवस्था बचाव के रूप में नामित डेरिवेटिव्स अनुबंधों का व्यवस्था बचाव के रूप में तब तक चिन्हित नहीं किया जाता है जब तक उनकी अन्डरलाइनिंग आस्तियों को मार्केट-टू-मार्केट के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता. व्यवस्था के बचाव के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव्स अनुबंध जहां की जाती है और जहां मार्केट-टू-मार्केट नहीं है उपचय-आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स मार्केट टू मार्केट (एमटीएम) हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है. लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय दैनिक आधार पर दर्ज होता है. ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर लाभ/हानि समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज की जाती है.

मूल्यांकन के लिए, कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है.

तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडरल' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

## 4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाये प्रावधानों को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण

### 3.9 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD. MAOG.No.116/01.01.001/2016-17 dated 10-11-2016]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

### 3.10 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge (mark to market) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market. Trading derivative positions are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

## 4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the

मानदंडों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हो, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है।

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उच्चतम ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं।

4.3 सतत अभ्यास के रूप में बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया है-

- प्रत्याभूत सब स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता के स्थान पर 20% का प्रावधान।
- एनपीए कर्जधारकों की निधि रहित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ़) का प्रावधान किया गया। प्रावधान ग्राहक की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित है।
- बैंक ने मौजूदा एनपीए खातों के लिए भी 100% प्रावधान किए हैं जैसे ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण तथा संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो 6 माह पुराने हैं एवं संपार्श्विक मुक्त हैं।
- संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रत्याभूत हैं (संपार्श्विक) तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक हैं के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।
- मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रैक्टर/ टिलर/ पावर टेलर जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।

4.4 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है।

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) /प्रतिभूतिकरण (सिक्वोरिटाइज़ेशन) कंपनी (एससी) को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है, वर्तमान में बैंक द्वारा अनुपालन किये जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी) पर की गयी हो (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को दो वर्षों की अवधि के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त होती है, अधिक्त्य प्रावधान राशि लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित कर दी जाती है।

## 5. अस्थायी प्रावधान

अग्रिमों, निवेश एवं सामान्य उद्देश्यों के निर्माण एवं उपयोग के लिए बैंक की पृथक अस्थायी प्रावधान बनाने की नीति है, किए जाने वाले अस्थाई प्रावधान परिमाण का मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाता है।

Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a constant practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Auto Loan, Education Loan, Personal Loan and Loan against mortgage of properties which are 6 month old and are collateral free.
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.

4.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account spread over a period of two years. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

## 5. FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The



भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीतियों में निर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक व्यय के लिए अस्थायी प्रावधान का उपयोग किया जाता है।

## 6. अचल आस्तियां

- 6.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, सामान्यतः परम्परागत मूल्य पर ली गयी हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पूंजीगत आरक्षित निधि में जमा किया गया है।
- 6.2 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है।

## 7. आरक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक आरक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

## 8. राजस्व का निर्धारण

- 8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में दिए गए संदर्भ को छोड़कर) को उपचय आधार पर सामान्यतः लेखांकित किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में आय / व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गयी है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है।
- 8.2 सरकारी कारोबार, गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज तथा कर रिफंड पर अर्जित ब्याज को छोड़कर शुल्क, कमीशन के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर लाभांश वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- 8.3 गैर निष्पादित आस्तियों / निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है।
- 8.4 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 19 (पट्टे) के अनुसार लीज शर्त पर लीज भुगतानों को, जिसमें परिचालन लीज पर ली गयी आस्तियों की लागत वृद्धि शामिल है, लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- 8.5 एनपीए खातों में वसूली का समायोजन:  
एनपीए के मामलों में, खातों पर समय-समय पर हुई वसूलियों को निम्नानुसार समायोजित किया जाना चाहिये (जनधन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित)-  
ए) सभी लागतों, कमीशन, प्रभारों एवं बैंक द्वारा उठाए या किए गए व्ययों के प्रति  
बी) बैंक पर बकाया ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगामी ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति  
सी) मूलधन के भुगतान के लिए

## 9. कर्मचारियों को लाभ

### 9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व

floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

## 6. FIXED ASSETS

- 6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Capital Reserve
- 6.2 Premises include land and building under construction.

## 7. RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

## 8. REVENUE RECOGNITION

- 8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 8.2 Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.
- 8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.
- 8.4 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.
- 8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :  
In respect of NPAs, recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following manner:  
a) towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank  
b) towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank  
c) towards payment of the principal moneys

## 9. EMPLOYEE BENEFITS

### 9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays

निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है.

## 9.2 उपदान

बैंक ऑफ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. बैंक द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ बड़ौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है.

## 9.3 पेंशन

बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रूप में व्याख्या की गयी है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है. बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है.

जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 01.04.2010 को या उसके बाद ग्रहण की है, उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

## 9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थिति यथा उपाजित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश के बीमाकिक मूल्यांकन के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

## 9.5 अन्य कर्मचारी लाभ (हित)

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है.

## 10. मूल्यहास

10.1 भारत में अचल आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को छोड़कर (निम्न वर्णित अनुच्छेद 10.3 व 10.4 के अलावा) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित मूल्यहास मूल्य पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है. इसमें पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर अधिक मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है.

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 10.3 में

fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

## 9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

## 9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

## 9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

## 9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

## 10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided on the written down value method in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other



वर्णित को छोड़कर) मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

- 10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग हैं, पर मूल्यहास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रति वर्ष की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- 10.4 एटीएम पर मूल्यहास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।
- 10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।
- 10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

## 11. आस्तियों का मूल्यहास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यहास हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के मूल्यहास के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 ("आस्तियों का मूल्यहास") के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

## 12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन (विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव) संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक एएस 11 के अनुरूप किया गया है।
- 12.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) पृथक परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है।
- 12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :
  - ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर एफईडीएआई द्वारा सूचित की गयी साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है।
  - बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।
  - सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है।

than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

- 10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.
- 10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.
- 10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.
- 10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease.

## 11. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

## 12. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

- 12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI.
- 12.2 As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.
- 12.3 Translation in respect of Integral Operations:
  - a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
  - b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
  - c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.



डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाज़िर एवं वायदा संविदाओं के तुलन-पत्र की तिथि को 'एफईडीएआई' द्वारा अधिसूचित बंद हाज़िर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेटेड' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है. इस प्रकार प्राप्त की गयी एमटीएम मूल्य को, एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर भुनाया जाता है. इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाज़िर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है. इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है।

#### 12.4 गैर समाकलित परिचालनों के संबंध में अंतरण :

- ए) आस्तियों एवं देयताओं को फेडआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गयी क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया गया है.
- बी) तुलनपत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा हाज़िर एवं वायदा आकस्मिक देयताओं को 'एफईडीएआई' द्वारा अधिसूचित बंद हाज़िर व वायदा दरों एवं अन्तरित परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेटेड' दरों पर अंतरित किया जाता है.
- सी) आमदनी एवं खर्चों को एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गयी औसत तिमाही दरों पर अंतरित किया गया है.
- डी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है तथा इसे सम्बद्ध विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा अंतरण निधि" में रखा जाता है.

#### 12.5 वायदा विनिमय करार

लेखा मानक एस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलनपत्र की तिथि पर बकाया एवं व्यापार हेतु धारित विदेशी मुद्रा हाज़िर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित बंद हाज़िर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को बाजार भाव पर दर्शाया जाता है. इस प्रकार प्राप्त एमटीएम मूल्य का वर्तमान एमटीएम का मूल्य निकालने हेतु बट्टाकृत किया जाता है. इस एमटीएम का पीवी आधार पर स्पॉट एवं वायदा संव्यवहारों का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु उपयोग किया जाता है. इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है.

### 13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं. आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

#### 12.4 Translation in respect of Non Integral Operations

- a) Assets and liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- b) Foreign exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and interpolated rates for contracts of interim maturities.
- c) Income and expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net Investment.

#### 12.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI & provisions of AS-11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

### 13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets



योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है. आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है.

#### 14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है. आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है.

#### 15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है. यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है.

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों में प्रभारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रूप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो.

and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

#### 14. EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

#### 15. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

## अनुसूची-18 लेखों पर टिप्पणियां Schedule-18 Notes on Accounts

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण

A. Disclosure in terms of RBI requirements

ए-1. पूंजी

A-1 Capital

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		Current Year	Previous Year
		बासेल III	बासेल III
		<b>BASEL III</b>	<b>BASEL III</b>
i) कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	9.23%	8.98%
ii) टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Tier 1 Capital Ratio (%)	10.46%	9.93%
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	Tier 2 Capital Ratio (%)	1.67%	2.31%
iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	12.13%	12.24%
v) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India	64.03%	59.24%
vi) अर्जित इक्विटी पूंजी की राशि@	Amount of Equity Capital Raised@	5375	--
vii) अर्जित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें से	Amount of Additional Tier 1 capital raised, of which		
स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS)	--	--
स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	Perpetual Debt Instrument (PDI)	1350	2000
viii) अर्जित अतिरिक्त टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें से	Amount of Additional Tier 2 capital raised, of which		
ऋण पूंजी लिखत	Debt Capital Instrument	--	--
अधिमान्य शेयर पूंजी लिखत	Preference Share Capital Instruments	Nil	Nil

@ वर्ष के दौरान सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के अनुरूप दिनांक 13 मार्च 2018 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अनुरूप 27 मार्च 2018 को बैंक ने भारत सरकार को प्रति शेयर ₹ 2 के मूल्य के 34,13,56,534 शेयर आबंटित किया है तथा प्रति शेयर का प्रीमियम ₹ 155.46 का पूर्णतः भुगतान कर दिया है. इस खाते में बैंक को प्राप्त कुल राशि ₹ 5375 करोड़ है.

@ During the year, on March 27, 2018, bank has allotted 34,13,56,534 equity shares of ₹ 2/- each fully paid up at a premium of ₹ 155.46 per share to the Government of India, as approved by shareholders in the Extra-Ordinary General Meeting held on 13<sup>th</sup> March 2018 in accordance with SEBI (ICDR) Regulations 2009 on preferential basis. Total amount received by Bank on this account is ₹ 5375 Crores.

ए-2. निवेश

A-2 Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		Current Year	Previous Year
(1) निवेशों का मूल्य	(1) Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments		
(ए) भारत में	(a) In India	155514.33	122169.17
(बी) भारत से बाहर	(b) Outside India	9517.51	8549.51
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation		
(ए) भारत में	(a) In India	1501.43	771.31
(बी) भारत से बाहर	(b) Outside India	345.86	316.82
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments		
(ए) भारत में	(a) In India	154012.90	121397.86
(बी) भारत से बाहर	(b) Outside India	9171.64	8232.69
(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) प्रारम्भिक शेष	(i) Opening balance	1088.13	1135.06
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	(ii) Add: Provision made during the year	806.26	67.75
(iii) जोड़ें/(घटाएं) : विदेशी विनियम पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(iii) Add/(Less): Foreign Exchange Revaluation Adjustment	26.55	(33.70)
(iv) घटाएं : अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	(iv) Less: Write-back of excess provisions	(73.65)	(80.98)
(v) अंतिम शेष	(v) Closing balance	1847.29	1088.13



भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र क्रमांक आरबीआई / 2017-18 / 147 डीबीआर सं. बीपीबीसी 102 / 21.04.048 / 2017-18 दिनांक 02.04.2018 द्वारा बैंकों को 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एएफएस और एचएफटी में निवेश पर हानि के लिए मार्क टू मार्केट (एमटीएम) प्रावधानों को बढ़ाने के विकल्प को चयनित करने की अनुमति प्रदान की है. जिस तिमाही में हानि हुई है उस तिमाही से लेकर चार तिमाहियों तक हानि को विस्तृत किया जा सकता है. तथापि वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को कोई भी एमटीएम हानि नहीं हुई है.

As per letter RBI/2017-18/147:DBR No. BPBC 102/21.04.048/2017-18 dated 02.04.2018, RBI has permitted banks to opt for spread over provisioning for Mark to Market (MTM) losses on investment held in AFS and HFT for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018. The losses can be spread over four quarters, commencing from the quarter in which the loss has been incurred. However, Bank has not incurred any MTM loss during the year 2017-18.

ए-2.1 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

चालू वर्ष (31.03.2018 को)

A-2.1 Repo Transactions: (in face value terms)

Current Year (As on 31.03.2018).

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)					
विवरण	P3articulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2018 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2018
रेपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	109.56	34015.12	2232.93	27590.17
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	913.01	1313.54	1050.10	1313.54
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	124.29	41792.29	17217.02	4900.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0	0	0	0

विगत वर्ष (31.03.2017 को)

Previous Year (As on 31.03.2017).

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)					
विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2018 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2018
रेपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	213.13	22087.39	1345.15	313.02
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	921.83	921.83	921.83	921.83
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	67.59	56950.91	10353.54	23368.34
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0	0	0	0

ए-2.2 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

A-2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक

i) Issuer composition of Non SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)							
क्र. सं. S. No.	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' securities	'अनरेटेड प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(i)	पीएसयू	PSUs	840.50	293.71	50.94	0.00	197.86
(ii)	एफआई	FIs	6964.22	2741.92	220.37	0.00	25.00
(iii)	बैंक	Banks	4626.00	419.98	170.00	123.41	65.18
(iv)	निजी कार्पोरेट	Private Corporate	3774.41	1875.94	170.95	839.61	11.40



(v) अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम*	Subsidiaries/ Joint Ventures *	2035.38	2035.38	0.00	0.00	0.00
(vi) अन्य#	Others #	11980.88	7564.78	0.00	65.18	65.18
(vii) मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	Provision held towards depreciation	1847.29	0.00	0.00	228.62	22.84
कुल	Total	<b>28374.10</b>	<b>14931.71</b>	<b>612.26</b>	<b>799.58</b>	<b>341.77</b>

\* ₹ 906.73 करोड़ का विदेशी अनुषंगियों में निवेश में शामिल है. (पिछले वर्ष ₹ 800.11 करोड़)

\* Includes investment in Overseas Subsidiary of ₹ 906.73 Crore (Previous Year ₹ 800.11 Crore)

# ए) ₹ 20.41 करोड़ भारत सरकार के गैर-एसएलआर ऑयल बॉण्ड में निवेश में शामिल है जिसे एनडीएस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडेड व सूचीबद्ध तथा एफआयएमएमडीए दरों पर उपलब्ध माना गया है.

बी) ₹ 5375 करोड़ भारत सरकार के गैर-एसएलआर पुनर्पूजीकरण बॉण्ड में निवेश में शामिल है. (पिछले वर्ष शून्य)

# a) includes Investments in GOI Non SLR oil bonds of ₹20.41 crores (Previous Year ₹20.41 crores) and State Govt Non-SLR bonds of ₹573.90 crores (PY ₹2394.71 crores) considered as listed as traded on NDS platform and FIMMDA rates available.

b) Includes investment in GOI Non-SLR Recapitalization Bonds of ₹5375 crores (Previous Year NIL).

ii) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

ii) Non performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रारंभिक शेष	Opening balance	879.50	735.35
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	1081.71	216.70
वर्ष के दौरान कटौतियां	Reductions during the year	13.46	72.55
अंतिम शेष	Closing balance	1947.75	879.50
कुल धारित प्रावधान	Total provisions held	1428.92	589.13

ए-2.3 वर्ष के प्रारंभ में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही-मूल्य के 5% से अतिरिक्त के परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में रखे गए निवेशों की बिक्री एवं अंतरण

A-2.3 Sales and transfer of Investment held under Held to Maturity (HTM) Category in excess of 5% of the Book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

वित्तीय वर्ष Financial Year	निवेश (एचटीएम) का प्रारंभिक शेष Opening Bal. of investment (HTM)	वर्ष के दौरान बिक्री/अंतरण Sale/ transfer during the year	जोड़ Addition	निवेश (एचटीएम) का अंतिम शेष Closing Bal. of Investment (HTM)	निवेश (एचटीएम) श्रेणी का बाजार मूल्य Market value of investment (HTM) category
2017-18	-	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-	-

ए-2.4 एसएलआर निवेश

A-2.4 SLR Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
		बही मूल्य Book value	बाजार मूल्य Market value	बही मूल्य Book value	बाजार मूल्य Market value
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी व टीबी)*	Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	134809.16	134809.16	110984.67	110984.67**
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर	Approved sec-SLR	1.28	1.28	1.28	1.28

\* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/यूएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं.

\*\* एसएलआर की गणना के लिए बाजार मूल्य में वृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है.

\* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / USE / NSE

\*\* Appreciation in market value is ignored for SLR calculation

ए-2.5 एसजीएल फार्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

A-2.5 Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2017-18	-	-	-
2016-17	-	-	-



ए-2.6 डेरीवेटिव्स

A-2.6 Derivatives

ए-2.6.1 वायदा दर समझौता / ब्याज दर स्वैप

A-2.6.1 Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
i) स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि	The notional principal of swap agreements	26509.49	26080.89
ii) समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	197.88	230.69
iii) स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित संपार्श्विक	Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	Concentration of credit risk arising from the swaps	506.46	490.97
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	The fair value of the swap book	19.45	114.43

31 मार्च, 2018 तक वायदा एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31<sup>st</sup> March 2018 are given below:

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	2	114.50	ईयूआर 6 एमएलआईबीओआर EUR 6 MLIBOR	अस्थायी प्राप्त स्थायी देय Receive Fixed Pay Floating
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	4	175	आईएनबीएमके / INBMK	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	18	1,890.08	एलआईबीओआर / LIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	3	207.69	एलआईबीओआर / LIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	6	456.23	एलआईबीओआर / LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	3	207.69	एलआईबीओआर / LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	196	5,563.50	एमआईबीओआर / MIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	70	2,175.00	एमआईबीओआर / MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	192	5,633.15	एमआईबीओआर / MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	19	900	एमआईएफओआर / MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	10	450	एमआईएफओआर / MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable

आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	10	450	एमआईएफओआर /MIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	1384.16	1 एम एलआईबीओआर जीबीपी प्राप्त 1 यूएसडी एमएलआईबीओआर भुगतान Receive GBP 1 M LIBOR Pay USD 1 M LIBOR	अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Pay Floating Receive Floating
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	2	397.69	3 एम एलआईबीओआर यूएसडी प्राप्त 3 ईयूआर एमईयूआरआईबीओआर भुगतान Receive USD 3 M LIBOR Pay EUR 3 M EURIBOR	अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Pay Floating Receive Floating
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	103.22	6 एम एलआईबीओआर यूएसडी प्राप्त 6 ईयूआर एम ईयूआरआईबीओआर भुगतान Receive USD 6 M LIBOR Pay EUR 6 M EURIBOR	अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Pay Floating Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	8	604.66	यूएसडी 3 एमएलआईबीओआर USD 3 M LIBOR	स्थायी प्राप्य अस्थायी देय Pay Fixed Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	4	201.04	यूएसडी 6 एमएलआईबीओआर USD 6 M LIBOR	स्थायी प्राप्य अस्थायी देय Pay Fixed Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	9	5595.88	यूएसडी 6 एमएलआईबीओआर USD 6 M LIBOR	स्थायी प्राप्य अस्थायी देय Receive Fixed Pay Floating
			<b>26,509.49</b>		

31 मार्च, 2017 को वायदा दर समझौता और ब्याज दर स्वैप की प्रवृत्ति एवं शर्तें निम्न अनुसार हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31<sup>st</sup> March 2017 are given below:

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	102.72	ईयूआर 6 एम एलआईबीओआर EUR 6 M LIBOR	स्थायी प्राप्त अस्थायी देय Receive Fixed Pay Floating
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	4	175	आईएनबीएमके INBMK	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2	81.92	एलआईबीओआर LIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	3	486.38	एलआईबीओआर LIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2	81.92	एलआईबीओआर LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	165	5,461.87	एमआईबीओआर MIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	138	4,927.04	एमआईबीओआर MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	94	2,800.00	एमआईबीओआर MIBOR	अस्थायी प्राप्य स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2	50	एमआईएफओआर MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	6	525	एमआईएफओआर MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1	25	एमआईएफओआर MIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable



सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	2	168.07	3 एम एलआईबीओआर जीबीपी प्राप्त 3 ईयूआर एम एलआईबीओआर भुगतान Receive GBP 3 M LIBOR Pay EUR 3 M LIBOR	अस्थायी देय अस्थायी प्राप्त Pay Floating Receive Floating
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	240.38	3 एम एलआईबीओआर यूएसडी प्राप्त 3 ईयूआर एम एलआईबीओआर भुगतान Receive USD 3 M LIBOR Pay EUR 3 M LIBOR	अस्थायी देय अस्थायी प्राप्त Pay Floating Receive Floating
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	158.37	6 एम एलआईबीओआर यूएसडी प्राप्त 6 ईयूआर एम एलआईबीओआर भुगतान Receive USD 6 M LIBOR Pay EUR 6 M LIBOR	अस्थायी देय अस्थायी प्राप्त Pay Floating Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	8	483.80	यूएसडी 3 एम एलआईबीओआर USD 3 M LIBOR	अस्थायी देय स्थायी प्राप्त Pay Fixed Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	14	3202.23	यूएसडी 6 एमएलआईबीओआर USD 6 M LIBOR	अस्थायी देय स्थायी प्राप्त Pay Fixed Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	16	7111.19	यूएसडी 6 एमएलआईबीओआर USD 6 M LIBOR	अस्थायी देय स्थायी प्राप्त Receive Fixed Pay Floating
			<b>26,080.89</b>		

ए-2.6.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

A-2.6.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्र. सं. S. No.	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives undertaken during the year (instrument-wise)		
	ए. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ)	A. Interest Rate Future (IRF)	18786.47	17063.65
	बी. करेंसी फ्यूचर्स	B. Currency Futures	46189.24	79375.79
	सी. ऑप्शन	C. Options	2431.66	0.00
(ii)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की 31 मार्च, 2017 के अनुसार (लिखतवार) बकाया कल्पित मूल राशि	Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding as on 31 <sup>st</sup> March 2017 (instrument-wise)		
	ए. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ)	A. Interest Rate Future (IRF)	0.00	92.04
	बी. करेंसी फ्यूचर्स	B. Currency Futures	0.00	0.00
	सी. ऑप्शन	C. Option	127.48	0.00
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया कल्पित मूल राशि तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य NIL	शून्य NIL
(iv)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट मूल्य तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो (लिखतवार)	Mark-to-market (MTM) value of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य NIL	शून्य NIL

ए-2.6.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

A-2.6.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) Qualitative Disclosure

बैंक के तुलन-पत्र में न आने वाले नीति में डेरीवेटिव्स लेन-देन के कार्यों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गयी हैं.

The Off Balance Sheet Policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking



बैंक अपने तुलन-पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाजार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव्स लेन-देनों का उपयोग करता है। मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने एवं प्रोपराइटी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम। बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम जोखिम पर कीमत, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन-देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गयी हैं। इनकी बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा निगरानी की जाती है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है।

लेन-देनों की काउंटर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं। अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं। डेरिवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टू-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जब बैंक को काउंटर पार्टी से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रूपांतरण घटकों के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

कल्पित मूल राशि पर लागू किया जाने वाला रूपांतरण घटक

अवशिष्ट परिपक्वता	Residual Maturity	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
		Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
एक वर्ष से कम	Less than one year	0.50%	2.00%
एक वर्ष से पांच वर्ष	One year to five year	1.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक	Over five years	3.00%	15.00%

हेज तथा गैर-हेज (ट्रेडिंग) लेन-देनों को अलग से दर्ज किया जाता है। हेजिंग डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोझिशन (एमटीएम) को मार्क किया जाता है और परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में लिया जाता है। लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है। ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित आय और व्यय निपटान की तारीख पर हिसाब में लिए जाते हैं। ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होने पर लाभ /हानि समाप्ति की तारीख पर आय /व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

derivative transaction. The bank uses financial derivative transactions for hedging, its on or off balance sheet exposures as well as for market making. Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, Value at Risk (VaR) and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Managing Director.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:

Conversion factor to be applied on notional principal amount

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. In cases where the underlying is not subject to mark to market the hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.



(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ii) Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्र. सं. S. No.	विवरण	Particular	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
			करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	ए) हेजिंग के लिए	a) For hedging	1885.07	11937.39	566.82	14224.94
	बी) ट्रेडिंग के लिए	b) For trading	6378.68	12687.03	827.12	11381.17
(ii)	मार्केड टू मार्केट स्थितियां	Marked to Market Positions				
	ए) आस्तियां (+)	a) Asset (+)	118.37	112.87	83.53	155.37
	बी) देयताएं (-)	b) Liability (-)	-58.26	-153.72	-35.57	-88.78
(iii)	ऋण जोखिम	Credit Exposure	252.72	351.94	145.16	363.74
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	ए) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	a) on hedging derivatives	18.39	-65.73	2.56	208.02
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	b) on trading derivatives	0.00	2.70	0.00	7.16
(v)	वर्ष के दौरान पाए गए न्यूनतम तथा अधिकतम 100*पीवी01	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	ए) हेजिंग पर	a) on hedging	21.97 & -0.83	80.34 & -29.27	0 & 0	175.05 & -4.53
	बी) ट्रेडिंग पर	b) on trading	0 & 0	33.52 & 0.05	2.37 & 0	33.69 & 0.30

ए-2.6.4 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

मूल्यांकन प्रणाली- सीडीएस पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23.05.2011 के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी सीडीएस संविदाओं के मूल्यांकन हेतु एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व अथवा इससे अधिक संरक्षित मूल्यांकन होने पर किसी अन्य स्वामित्व मॉडल का उपयोग करना आवश्यक है। अपनी सीडीएस स्थितियों के मूल्यांकन के लिए हमारा बैंक एफआईएमएमडीए कर्व का ही उपयोग करता है, सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक स्वामित्व मॉडल का उपयोग नहीं करता है। यद्यपि दि. 31 मार्च 2018 को हमारा कोई सीडीएस डील बकाया नहीं है।

ए-2.7 आस्ति गुणवत्ता

ए-2.7.1 अनर्जक आस्तियां

ए. अनर्जक आस्तियों का संचलन

A.2.6.4 Credit Default Swaps (CDS)

Valuation Methodology- As per RBI guidelines on CDS dated 23<sup>rd</sup> May, 2011 the banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA Or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. The Bank uses the FIMMDA curve for valuing our CDS positions, The Bank do not use any internal proprietary model for CDS valuation. However, the Bank do not have any CDS deal outstanding as of 31<sup>st</sup> March 2018

A-2.7 Asset Quality

A-2.7.1 Non Performing Assets

A. Movement of NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs (Opening Balance)	42718.70	40521.04
वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए)	Additions (Fresh NPAs) during the year	24152.34	13311.63
उप जोड़ (ए)	Sub-total (A) .	66871.04	53832.67
घटाएं :	Less:-		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up-gradations	1025.74	2510.68

(ii) वसूलियां (अपग्रेड किए गए खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर)	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	4416.73	4087.72
(iii) बटटे खाते डाली गयी राशि (विनिमय अंतर को शामिल करके)	(iii) Write-offs (including exchange differences)	4948.19	4515.57
उप-योग (बी)	Sub-total (B)	10390.66	11113.97
सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	Gross NPAs (Closing Balance) (A-B)	56480.38	42718.70

**बी. अनर्जक आस्तियां**
**B. Non-Performing Assets**

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%)	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	5.49	4.72
(ii) एनपीए का संचलन (सकल)	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	42718.70	40521.04
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(b) Additions during the year	24152.34	13311.63
(सी) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	10390.66	11113.97
(डी) अंतिम शेष	(d) Closing balance	56480.38	42718.70
(iii) निवल एनपीए का संचलन	(iii) Movement of Net NPAs		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	18080.18	19406.46
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(b) Additions during the year	9887.33	9619.24
(सी) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	4484.86	10945.52
(डी) अंतिम शेष	(d) Closing balance	23482.65	18080.18
(iv) एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	24638.52	21114.58
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(b) Provisions made during the year	14265.01	8460.70
(सी) तकनीकी/विवेक सम्मत अपलिखित	(c) Technical / Prudential write offs	5905.57	4936.76
(डी) अपलिखित राशि (उपरोक्त के अलावा)	(d) Write off (Other than above)	0.00	0.00
(ई) अंतिम शेष	(e) Closing balance	<b>32997.76</b>	<b>24638.52</b>
(v) तकनीकी अपलिखितों का संचलन	(v) Movement of Technical Write offs		
तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित की गयी राशियों का प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical / Prudential written-off account	11790.89	8132.15
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित राशि	Add : Technical / Prudential write-off during the year	4282.43	4118.37
उप योग (ए)	Sub Total (A)	16073.32	12250.52
घटाएं : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित राशियों की वसूली (बी)	Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B)	945.03	459.63
अन्तिम शेष (ए-बी)	Closing Balance (A-B)	15128.29	11790.89

**सी. क्षेत्रवार एनपीए**
**C. Sector-wise NPAs**

क्रमांक S. No.	क्षेत्र Sector	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	Agriculture & allied activities	12.67	11.26
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	Industry (Micro & small, Medium and Large)	23.92	19.84
3	सेवाएं	Services	12.12	3.96
4	वैयक्तिक ऋण	Personal Loans	1.56	4.04



डी. विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

D. Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कुल आस्तियां	Total Assets	166712.61	202474.79
कुल एन पी ए	Total NPAs	8291.05	9033.58
कुल राजस्व	Total Revenue	4963.13	5170.45

ई. भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र क्रमांक डीबीआर.बीपी.बीसी नं 53 / 21.04.018 / 2016-17 दिनांक 18 अप्रैल 2017 के अनुसार यदि कर के पश्चात घोषित निवल आय से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता 15% से अधिक हो या संदर्भ अवधि के दौरान घोषित बढ़े हुए सकल एनपीए में भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा चिन्हित सकल एनपीए में 15% की वृद्धि हो तो बैंकों को आस्ति गुणवत्ता तथा प्रावधानों के अंतर के प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होगी।

वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष 2016-17 के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विचलनों का मूल्यांकन किया। मानक ऋणों को गैर-निष्पादक आस्तियों में पुनर्वर्गीकरण तथा ₹ 42,718.17 करोड़ के एनपीए का पुनर्वर्गीकरण एवं मौजूदा एनपीए के अल्प प्रावधान के संदर्भ में किया गया अतिरिक्त प्रावधान जिसकी निवल कर की राशि ₹ 429.95 करोड़ (कर से पूर्व ₹ 657.50 करोड़) को जोड़ा गया है। इन विचलनों के विवरण निम्नानुसार हैं:

E. As per the RBI letter DBR.BP.BC.No.53/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017 banks are required to disclose the divergence in the asset classification and provisioning if the additional provisioning requirements assessed by RBI exceeds 15% of published net profit after tax or additional Gross NPAs identified by RBI exceed 15% of published incremental Gross NPA during reference period.

During the year, RBI has assessed divergence in respect of financial year 2016-17. Reclassification of standard loans as Non-Performing and reclassification of NPAs amounting to ₹42,718.71 crore and additional provision on account of short provisions on existing NPAs net of tax amounting to ₹429.95 crore (Before tax ₹657.50 crores) have been annexed. Details of such divergences are as below:

(₹ हजार में / ₹ in Thousands)

क्रमांक S. No.	विवरण Particulars	राशि Amounts
1.	बैंक के द्वारा 31 मार्च 2017 को रिपोर्ट किए गए सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31,2017 as reported by the bank	427187069
2.	आरबीआई के द्वारा 31 मार्च 2017 को निर्धारित किया गया सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31,2017 as assessed by RBI	456374069
3.	सकल एनपीए में अंतर (2-1) Divergence in Gross NPAs (2-1)	29187000
4.	बैंक के द्वारा 31 मार्च 2017 को रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए Net NPAs as on March 31,2017 as reported by the bank	180801822
5.	आरबीआई के द्वारा 31 मार्च 2017 को निर्धारित किया गया निवल एनपीए Net NPAs as on March 31,2017 as assessed by RBI	203413822
6.	निवल एनपीए में अंतर (5-4) Divergence in Net NPAs (5-4)	22612000
7.	बैंक के द्वारा रिपोर्ट किए गए 31 मार्च 2017 तक एनपीए के लिए प्रावधान Provision for NPAs as on March 31,2017 as reported by the bank	246385200
8.	आरबीआई के द्वारा निर्धारित किए गए 31 मार्च 2017 तक एनपीए के लिए प्रावधान Provision for NPAs as on March 31,2017 as assessed by RBI	252960200
9.	निवल एनपीए में अंतर (8-7) (निवल कर) Divergence in Net NPAs (8-7) (Net of Tax)	6575000
10.	31 मार्च 2017 की समाप्ति तक कर के पश्चात रिपोर्ट किया गया निवल लाभ Reported Net profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	13831300
11.	31 मार्च 2017 की समाप्ति के पश्चात कर के पश्चात समायोजित (अनुमानित) निवल लाभ (पैट), प्रावधानों की भिन्नता को अलग रखते हुए Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning	9531776



ए.2.7.2. पुनर्गठित अग्रिमों का प्रकटीकरण/A-2.7.2. Disclosure of restructured advances दिनांक 31.03.2018 तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (वित्तीय वर्ष 2017-18) / Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2018 (F.Y. 2017-18)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार/ Type of Restructuring		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism						एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism						अन्य Others						कुल Total						
	आस्ति वर्गीकरण Assets Classification		मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	01 अप्रैल 2017 तक पुनर्गठित खाते Restructured Accounts as on April 01, 2017	विवरण Details	18.00	3.00	18.00	2.00	41.00	18.00	1.35.00	4103.00	180.00	5248.00	10970.00	863.00	17724.00	3103.00	32660.00	11817.00	1002.00	21845.00	3285.00	37949.00	11817.00	1002.00	21845.00	3285.00	37949.00
		ऋणियों की संख्या No. of borrowers	2025.19	261.33	1612.39	263.90	4162.81	186.57	24.84	1251.53	298.48	1761.42	8550.09	1387.23	8983.96	829.64	19750.92	10761.85	1673.40	11847.88	1392.02	25675.15	10761.85	1673.40	11847.88	1392.02	25675.15
		बकाया राशि Amount outstanding	91.93	12.35	49.83	0.00	154.11	21.25	2.00	17.65	0.00	40.90	303.85	3.47	53.51	0.00	360.83	417.03	17.82	120.99	0.00	555.84	417.03	17.82	120.99	0.00	555.84
		उस पर प्रबंधन Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	3.00	5.00	18.00	14.00	5.00	6.00	25.00	21.00	8.00	3.00	11.00	0.00	43.00	21.00	8.00	3.00	11.00	43.00
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year	विवरण Details	675.31	0.00	35.64	0.00	710.95	32.94	2.91	25.66	1.74	63.25	7885.16	56.27	936.13	10.93	8888.49	8933.41	59.18	997.43	12.67	9662.69	8933.41	59.18	997.43	12.67	9662.69
		ऋणियों की संख्या No. of borrowers	675.31	0.00	35.64	0.00	710.95	32.94	2.91	25.66	1.74	63.25	7885.16	56.27	936.13	10.93	8888.49	8933.41	59.18	997.43	12.67	9662.69	8933.41	59.18	997.43	12.67	9662.69
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.02	0.69	0.00	0.79	0.04	0.03	0.00	0.07	0.12	0.05	0.05	0.69	0.00	0.86	0.12	0.05	0.69	0.00	0.86
		उस पर प्रबंधन Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.02	0.69	0.00	0.79	0.04	0.03	0.00	0.07	0.12	0.05	0.05	0.69	0.00	0.86	0.12	0.05	0.69	0.00	0.86



**२.2.7.2. पुनर्गठित अग्रिमों का प्रकटीकरण/A-2.7.2. Disclosure of restructured advances**  
दिनांक 31.03.2018 तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (वित्तीय वर्ष 2017-18) / Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2018 (F.Y. 2017-18)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार/ Type of Restructuring		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism						एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism						अन्य Others						कुल Total						
	आस्ति वर्गीकरण Assets Classification		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
3	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	-44.00	-98.00	-7.00	0.00	743.00	-225.00	-431.00	-87.00	0.00	892.00	-289.00	-529.00	-94.00	0.00	892.00	-289.00	-529.00	-94.00	0.00
	Upgradation to restructured standard category during the FY 2016-17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	-6.24	-18.76	-0.27	0.00	26.53	-11.12	-13.97	-1.44	0.00	51.80	-17.36	-32.73	-1.71	0.00	51.80	-17.36	-32.73	-1.71	0.00
	इस पर प्रवधान Provision thereon		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	-0.32	-0.35	0.00	0.00	1.31	-0.54	-0.77	0.00	1.98	-0.86	-1.12	0.00	0.00	1.98	-0.86	-1.12	0.00	0.00	
4	पुनर्गठित मानक खाते जिसमें अत्यधिक प्रवधानों को खारिज कर दिया है और / या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अत्यधिक जोखिम धारित किया है तथा इस कारण से अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ से इन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिमों में दर्शाना अपेक्षित नहीं है.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-704.27	-1828.23	0.00	0.00	-1328.23
	Restricted standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ए.2.7.2. पुनर्गठित अग्रिमों का प्रकटीकरण/A-2.7.2. Disclosure of restructured advances

दिनांक 31.03.2018 तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (वित्तीय वर्ष 2017-18) / Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2018 (F.Y. 2017-18)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार/ Type of Restructuring	सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism						एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism						अन्य Others						कुल Total			
		मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total		मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total		मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradation of restructured accounts during the FY 2017-18	-6.00	-3.00	6.00	1.00	-2.00		-1239.26	-247.68	989.77	324.59	-172.58		-1919.00	233.00	1543.00	145.00	2.00	-2083.00	249.00	1657.00	177.00	0.00
	ऋणियों की संख्या No. of borrowers																						
	बकाया राशि Amount outstanding																						
	उस पर प्रवृद्धान Provision thereon																						
6	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते डाला गया Write off of restructured accounts during the FY 2017-18	-1.00	0.00	-12.00	0.00	-13.00		-427.00	-86.00	2348.00	1314.00	-1547.00		-6270.00	-609.00	-3486.00	-142.00	-10507.00	-6893.00	-695.00	1172.00	-12067.00	
	ऋणियों की संख्या No. of borrowers																						
	बकाया राशि Amount outstanding																						
	उस पर प्रवृद्धान Provision thereon																						
7	31 मार्च 2018 तक पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2018	11.00	0.00	12.00	3.00	26.00		400.00	28.00	1788.00	1523.00	3719.00		3538.00	267.00	15350.00	3025.00	22180.00	295.00	17130.00	4551.00	25925.00	
	ऋणियों की संख्या No. of borrowers																						
	बकाया राशि Amount outstanding																						
	उस पर प्रवृद्धान Provision thereon																						



ए-2.7.2. पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (वित्तीय वर्ष 2016-17) / A-2.7.2. Disclosure of Restructured Accounts F Y (2016-17)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं. S. No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring	आस्ति वर्गीकरण Assets Classification	सौडीआर कार्यप्रणाली के अर्धीन Under CDR Mechanism						एसएमई ऋण पुनर्गठन के अर्धीन Under SME Debt Restructuring Mechanism						अन्य Others						कुल Total											
			मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total					
1	01 अप्रैल 2016 तक पुनर्गठित खाते Restructured Accounts as on April 01, 2016	ऋणियों की संख्या No. of borrowers बकाया राशि Amount outstanding उस पर Provision thereon	38.00	2.00	33.00	2.00	75.00	3319.61	183.64	3900.29	99.56	7503.10	205.60	1.75	95.73	0.00	303.08	750.47	186.33	1537.47	8.46	2484.73	19403.00	541.00	18154.00	2703.00	40801.00	21164.00	647.00	22972.00	2765.00	47548.00
2	वर्ष के दौरान नू पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year	ऋणियों की संख्या No. of borrowers बकाया राशि Amount outstanding उस पर Provision thereon	13.00	3.00	3.00	0.00	19.00	120.20	51.04	9.28	0.00	180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	126.00	754.00	36.00	1295.00	5620.00	760.00	3435.00	481.00	10296.00	6012.00	889.00	4192.00	517.00	11610.00
3	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradation to restructured standard category during the FY 2016-17	ऋणियों की संख्या No. of borrowers बकाया राशि Amount outstanding उस पर Provision thereon	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	628.51	0.00	-628.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	-20.00	-169.00	-3.00	0.00	1446.00	-82.00	-1275.00	-89.00	0.00	1639.00	-102.00	-1445.00	-92.00	0.00
			4.56	0.00	-4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	-1.14	-13.82	0.00	0.00	20.06	-1.14	-18.92	0.00	0.00	20.06	-1.14	-18.92	0.00	0.00	





ए- 2.7.2. पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (वित्तीय वर्ष 2016-17) / A-2.7.2. Disclosure of Restructured Accounts F Y (2016-17)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं.	S. No.	पुनर्गठन का प्रकार / Type of Restructuring	सौदेआर कार्यपद्धति के अर्धीन / Under CDR Mechanism					एएसएमई ऋण पुनर्गठन के अर्धीन / Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य / Others					कुल / Total										
			विवरण / Details	मानक / Standard	असमानक / Sub-standard	संदिग्ध / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total	मानक / Standard	असमानक / Sub-standard	संदिग्ध / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total	मानक / Standard	असमानक / Sub-standard	संदिग्ध / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total	मानक / Standard	असमानक / Sub-standard	संदिग्ध / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total					
4		पुनर्गठित मानक खाते / जिन्हें अत्यधिक प्रावधानों को स्थगित कर दिया है और / या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अत्यधिक जोखिम धारित किया है तथा इस कारण से आगे वित्तीय वर्ष के आरंभ से उन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिमों में दर्शाना अपेक्षित नहीं है. Restructured standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-143.00	0.00	0.00	0.00	-143.00	-3190.00	0.00	0.00	0.00	-3190.00	-3343.00	0.00	0.00	0.00	-3343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3343.00
			-1330.76	0.00	0.00	0.00	-1330.76	-147.53	0.00	0.00	-147.53	-363.97	0.00	0.00	0.00	-363.97	-1842.26	0.00	0.00	0.00	-1842.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1842.26	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



ए- 2.7.2. पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (वित्तीय वर्ष 2016-17) / A-2.7.2. Disclosure of Restructured Accounts F Y (2016-17)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं. S. No.	पुनर्गठन का प्रकार/ Type of Restructuring	आस्ति वर्गीकरण Assets Classification	सीडीआर कार्यवाही के अधीन Under CDR Mechanism						एसएमई ऋण पुनर्गठन के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism						अन्य Others						कुल Total																			
			मानक Standard	असमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	असमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	असमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	असमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total																		
5	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradation of restructured accounts during the FY 2016-17	ऋणियों की संख्या No. of borrowers बकाया राशि Amount outstanding उस पर प्रारक्षण Provision thereon	-7.00	3.00	3.00	1.00	0.00	-746.00	2.00	699.00	45.00	0.00	-5053.00	91.00	4319.00	641.00	-2.00	-5006.00	96.00	5021.00	687.00	-2.00	542.13	1633.84	1844.77	513.86	542.13	1974	14.25	-37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-592.00	-17864.00				
6	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते डाला गया Write off of restructured accounts during the FY 2016-17	ऋणियों की संख्या No. of borrowers बकाया राशि Amount outstanding उस पर प्रारक्षण Provision thereon	-17.00	-5.00	-20.00	-1.00	-43.00	-576.00	-76.00	-1986.00	42.00	-2576.00	-447.00	-386.88	-1840.48	-633.00	-15245.00	-7849.00	-528.00	-8895.00	-633.00	-15245.00	-633.00	-890.51	-4065.15	-4065.15	-4065.15	-4065.15	-673.48	-3243.95	-704.82	-6875.20	-334.21	0.00	0.00	0.00	-132.83	-334.21		
7	31 मार्च 2017 तक पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2017	ऋणियों की संख्या No. of borrowers बकाया राशि Amount outstanding उस पर प्रारक्षण Provision thereon	18.00	3.00	18.00	2.00	41.00	829.00	136.00	4103.00	180.00	5248.00	10970.00	863.00	17724.00	3103.00	32660.00	11817.00	1002.00	21845.00	3103.00	32660.00	3103.00	829.64	19750.92	10761.85	1673.40	11847.88	1392.02	25675.15	3285.00	37949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ए-2.7.3. क्षेत्रवार अग्रिम  
A-2.7.3. Sector-wise advances

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs
			उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector		उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
ए.	प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector				
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	43937.68	4892.37	43271.85	5138.60
2	प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उधार हेतु पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	31258.40	3682.70	23574.80	3656.07
3	सेवाएं Services	23369.71	2666.44	31206.49	3775.14
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	20938.22	689.74	14377.72	793.73
	उपजोड़ (ए) Sub – Total (A)	119504.01	11931.25	112430.86	13363.54
बी	नैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector				
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	4608.44	1256.73	3520.19	128.65
2	उद्योग Industry	71252.65	20840.59	75528.32	16012.58
3	सेवाएं Services	112891.40	13854.20	105031.85	5374.77
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	43012.14	306.56	12444.01	54.97
	उप-योग (बी) Sub – Total (B)	231764.63	36258.08	185324.37	21570.97
	कुल (ए+बी) Total (A + B)	351268.64	48189.33	297755.22	34934.51



ए-2.7.4. प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी अथवा आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गयी वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.7.4. Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company or Asset Reconstruction.

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) खातों की संख्या	No. of accounts	-	-
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का नेट)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	-	-
(iii) कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	-	-
(iv) प्रारंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v) निवल बही मूल्य पर सकल लाभ / (हानि)	Aggregate gain/(loss) over net book value	-	-

ए-2.7.5. प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का ब्यौरा

A – 2.7.5 Details of Investment in Security Receipts

विवरण	Particulars	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर SRs issued within past 5 years	5 से 8 वर्षों के मध्य जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्षों से अधिक के बाद जारी एसआर SRs issued more than 8 years ago
(i) अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एस आर का बही मूल्य (श्रेणी I एसआर)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying (Category I SR)	646.15	-	34.37
(ii) (i) के पेटे प्रावधान	Provision held against (i)	273.20	-	34.37
(iii) अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying (Category II SR)	-	-	17.70
(iv) (ii) के पेटे प्रावधान	Provision held against (ii)	-	-	17.70
(v) कुल (i) + (ii)	Total (i) + (ii)	<b>372.95</b>	-	-

प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

Details of Book Value of Investments in Security Receipts

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	1. Backed by NPAs sold by the bank as underlying	698.22	703.47
2. अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	2. Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions/ non banking financial companies as underlying		
	<b>कुल / Total</b>	<b>698.22</b>	<b>703.47</b>



ए-2-7.6 खरीदी गयी/ बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

A-2.7.6. Details of non-performing financial assets purchased/sold

ए. खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	1. (a) No. of accounts purchased during the year	-	-
(बी) समग्र बकाया	(b) Aggregate outstanding	-	-
2. (ए) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
(बी) समग्र बकाया	(b) Aggregate outstanding	-	-

बी. बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	03	-
2. समग्र बकाया	2. Aggregate outstanding	840.29	-
3. समग्र प्राप्त प्रतिफल	3. Aggregate consideration received	599.83	-

सी. प्रतिभूतिकरण कंपनियों को बेचे गये अनर्जक खाते

C. Non Performing Accounts sold to Securitization Companies

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण Particulars	एनपीए के कारण बैंक द्वारा बिक्रय की गयी अन्तर्निहित आस्तियां Backed by NPA sold by the Bank as underlying	एनपीए के कारण अन्य बैंकों/वित्तीय/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्रय की गयी अन्तर्निहित आस्तियां Backed by NPAs sold by Other banks/ financial / non-banking Financial companies underlying	कुल Total			
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य Book Value of Investment in Security Receipts	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

ए-2.7.7. मानक आस्तियों पर प्रावधान

A-2.7.7. Provisions on Standard Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आरबीआई मानदण्डों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets as per RBI norms	2263.29	3517.67

ए-2.7.8. जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा एनपीए का संकेन्द्रण

A-2.7.8. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(ए) जमाओं का संकेन्द्रण बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं	(a) Concentration of Deposits Total Deposits of twenty largest depositors	28688.80	33748.96



बैंक की कुल जमाओं में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	4.85%	5.61%
(बी) अग्रिमों का संकेन्द्रण	(b) Concentration of Advances		
बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए कुल ऋण	Total Advances to twenty largest borrowers	65525.02	55572.63
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	15.33%	13.48%
(सी) एक्सपोजर का संकेन्द्रण	(c) Concentration of Exposures		
बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	91825.31	73301.98
बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	13.58%	12.35%
(डी) एनपीए का संकेन्द्रण	(d) Concentration of NPAs		
चार बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to top four NPA accounts	7038.87	5446.82
(ई) प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)	(e) Provision Coverage Ratio (PCR)	67.21%	66.83%

ए-2.7.9. इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर

A-2.7.9. Intra Group Exposures

विवरण	Particulars	(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)					
		Current Year			Previous Year		
		निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Tota	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Tota
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	Total Amount of Intra Group Exposures	399.55	2035.38	2434.93	328.93	1742.15	2071.08
20 सर्वाधिक इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर वाले खाते	Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	399.55	2035.38	2434.93	328.93	1742.15	2071.08
ऋण कर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये बैंक के कुल एक्सपोजर में इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.09	0.48	0.57	0.09	0.45	0.54
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण तथा उसपर की गयी विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	-	-	-	-	-	-

ए-2.8 व्यावसायिक अनुपात

A-2.8 Business Ratios

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	6.35%	6.27%
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	Non-interest income as a Percentage to Average Working Funds	0.97%	1.00%
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	Operating Profit as a percentage to Average Working Funds	1.75%	1.63%
आस्तियों पर प्रतिफल (%)	Return on Assets (%)	(0.34)%	0.20%
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (कोर जमा तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में)	Business (Core Deposits plus advances) per employee (₹ in Crores)	17.66	17.49
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	Profit per employee (₹ in Crores)	(0.04)	0.03

**ए-2.9 आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप**
**A-2.9 Asset Liability Management Maturity pattern of certain items of assets and liabilities**

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		1 दिन 1 Day	2 से 7 दिनों 2 to 7 Days	8 से 14 दिनों 8 to 14 Days	15 से 30 दिनों 15-30 Days	31 दिनों-2 माह 31 Days - 2 Months	2 माह से अधिक - 3 माह Over 2 M - 3 Months	3 माह से अधिक - 6 माह Over 3 M - up to 6M	6 माह से अधिक - 12 माह Over 6 M - up to 12 M	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष Over 1 Yr - up to 3 years	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष Over 3 years - Upto 5 years	5 वर्षों से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा-राशियां	Deposits	7,408.95 (8632.95)	17,306.03 (27279.51)	18,765.00 (17755.04)	18,341.03 (27272.18)	27,064.60 (28059.87)	40,762.23 (37383.07)	48,975.25 (59433.47)	87,846.65 (89630.24)	1,67,849.43 (150610.93)	35,496.01 (32437.4)	1,21,499.64 (123180.51)	5,91,314.82 (601675.17)
अग्रिम	Advances	6,715.02 (9930.32)	12,561.30 (7549.48)	7,706.19 (7824.28)	19,563.24 (13962.56)	14,490.87 (11702.71)	22,382.02 (27253.58)	27,308.52 (32004.29)	19,498.89 (27779.29)	1,38,937.55 (119103.93)	51,540.10 (41493.34)	1,06,728.13 (84655.44)	4,27,431.83 (383259.22)
निवेश	Investments	0.00 (72.42)	1,238.57 (1241.03)	251.32 (1086.65)	783.46 (642.69)	808.93 (1248.50)	475.47 (3534.11)	5,693.87 (2628.31)	7,888.89 (5218.08)	22,989.78 (16971.49)	22,070.78 (24563.83)	1,00,983.46 (72423.43)	1,63,184.53 (129630.54)
उधार	Borrowings	840.51 (552.37)	18,630.70 (0.00)	6,500.01 (557.84)	6,055.37 (0.00)	273.74 (2350.69)	715.39 (1023.94)	2,427.29 (971.57)	1,904.97 (1827.75)	13,815.20 (15020.1)	7,203.68 (2711.61)	4,205.11 (5595.57)	62,571.97 (30611.44)
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency assets	25,911.23 (23327.21)	7,650.63 (11011.60)	5,356.64 (7597.54)	14,650.92 (18066.65)	23,655.75 (22949.67)	26,411.10 (37187.60)	25,103.14 (31224.97)	15,941.35 (23799.30)	19,923.77 (20622.93)	9,115.45 (7297.76)	6,279.78 (8206.96)	1,79,999.76 (211291.60)
विदेशी मुद्रा देयताएं	Foreign Currency liabilities	7,209.26 (7197.03)	19,293.16 (20260.95)	10,158.32 (9735.03)	15,833.65 (20078.81)	15,850.86 (20146.34)	22,963.83 (20218.29)	20,655.22 (26811.86)	27,317.51 (35254.63)	38,089.12 (28590.05)	9,551.50 (2497.79)	1,042.20 (9523.59)	1,87,964.63 (200314.36)

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की संख्याएं हैं।  
Figures in bracket denote previous year numbers
- आस्तियों एवं देयताओं का विभाजन "समूह आस्ति देयता प्रबंधन एवं समूह जोखिम नीति 2017" के अनुसार किया गया है।  
The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Group Asset Liability Management Policy 2017" of the Bank
- शुद्ध अग्रिमों की गणना करते समय प्रावधानों एवं अन्य कटौतियों का विभाजन सकल मानक अग्रिमों के अनुपात में किया गया है।  
The Distribution of provisions and other deductions, while arriving at the net advances, has been done in proportion to the gross Standard Advances.

**ए-2.10 एक्सपोजर**
**A-2.10 Exposure**
**ए-2.10.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर**
**A-2.10.1 Exposure to Real Estate Sector**

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

श्रेणी	Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	a) Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक -	(i) Residential Mortgages -		
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण प्रत्याभूत कर्ज,	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	44288.27	36021.58
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण	Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	(18616.53)	(14540.81)
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट -	(ii) Commercial Real Estate -		
वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार कमर्शियल परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, जमीन अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि). एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हो सकती हैं.	Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	7139.82	8786.49



(iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एम बी एस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
ए आवासीय	a. Residential	0.00	0.58
बी वाणिज्यिक रियल एस्टेट	b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
<b>बी. अप्रत्यक्ष एक्सपोजर</b>	<b>b. Indirect Exposure</b>		
निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures		
(i) नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी)	(i) National Housing Bank (NHB)	2.89	2.79
(ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	(ii) Housing Finance Companies (HFCs)	5704.30	3286.63
<b>रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर</b>	<b>Total Exposure to Real Estate Sector</b>	<b>57135.28</b>	<b>48098.07</b>

ए-2.10.2 पूंजी बाजार एक्सपोजर

A-2.10.2 Exposure to Capital Market

विवरण	Particulars	(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) इक्विटी शेयर्स, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों, जिनके कॉरपस कार्पोरेट ऋण में अलग से निवेश नहीं किए गए हों, में प्रत्यक्ष निवेश.	(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1106.57	1108.98
(ii) शेयर्स/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयर्स (आईपीओ/ईएसओपी), परिवर्तनशील बॉण्डों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बंध आधार पर दिए गए अग्रिम.	(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	7.72	10.80
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयर्स अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.00
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो कि शेयर्स, परिवर्तनशील बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयर्स/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ली गयी प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है.	(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	1450.15	906.96
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां.	(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	2.36	2.74
(vi) कार्पोरेट को शेयर्स/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी को प्रमोटर के अंशदान के लिए निर्बंध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम.	(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण.	(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	349.85	127.08
(viii) शेयर्स अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएं.	(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00





(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना.	(ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.31
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत दोनों) का समग्र जोखिम.	(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) ;	690.50	794.47
<b>पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर</b>	<b>Total Exposure to Capital Market</b>	<b>3607.15</b>	<b>2951.34</b>

पूँजी बाजार में ₹ 3607.15 करोड़ का एक्सपोजर ₹ 12207.92 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31.3.2017 को बैंक की ₹ 30519.80 करोड़ की निवल मालियत का 40%) है।  
 The exposure to Capital Market of ₹ 3607.15 Crores is within the limit of ₹ 12207.92 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 30519.80 Crores as on 31.03.2017)  
 पूँजी बाजार में ₹ 1804.79 करोड़ का एक्सपोजर ₹ 6103.96 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31.3.2017 को बैंक की ₹ 30519.80 करोड़ की निवल मालियत का 20%) है।  
 The direct exposure to Capital Market of ₹ 1804.79 Crore is within the limit of ₹ 6103.96 Crore (i.e. 20% of the Bank's net worth of ₹ 30519.80 crore as on 31.03.2017)

**ए-2.10.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर**

**A-2.10.3 Risk Category wise Country Exposure**

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

श्रेणी	Category	31 मार्च 2018 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31 <sup>st</sup> March 2018	31 मार्च 2018 को प्रावधान Provision held as on 31 <sup>st</sup> March 2018	31 मार्च 2017 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31 <sup>st</sup> March 2017	31 मार्च 2017 को प्रावधान Provision held as on 31 <sup>st</sup> March 2017
महत्वहीन	Insignificant	60720.85	40.07	71599.01	52.49
न्यून	Low	46353.43	29.74	48729.00	39.66
मध्य	Moderate	3227.02		3238.59	
उच्च	High	2135.74		1553.17	
अधिक उच्च	Very High	8.25		8.13	
सीमित	Restricted	0.21		0.00	
ऋण से इतर	Off-credit	1.67		0.00	
अ-मूल्यांकित	Not Rated	229.97		288.60	
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>112677.14</b>	<b>69.81</b>	<b>125416.50</b>	<b>92.15</b>

**ए-2.10.4 बैंक द्वारा पार की गयी एकल ऋणी सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणी सीमा (जीबीएल)**

**A-2.10.4 Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank**

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Borrower	एकल कर्जदार एक्सपोजर सीमा Single Borrower Exposure limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on 31 <sup>st</sup> March
2017-18	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-

  

वर्ष Year	समूह का नाम Name of Group	समूह कर्जदार एक्सपोजर सीमा Group Borrower Exposure limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on 31 <sup>st</sup> March
2017-18	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-

**ए-2.10.5 गैर-जमानती अग्रिम राशि**

**A-2.10.5 Amount of Unsecured advances**

(भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी संख्या 23/21.04.018/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के संदर्भ में) / (In terms of per RBI Circular No. DBR.BP.BC No.23/21.04.018/2015-16 dated 01<sup>st</sup> July 2015)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्र. सं. Sr No.	विवरण Particulars	31.03.2018 तक बकाया शेष राशि Amount o/s bal as on 31.03.2018
(i)	अमूर्त परिसंपत्ति जैसे कि अधिकार पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि के रूप में रखी गई संपार्श्विक प्रतिभूति इत्यादि से समर्थित अप्रत्याभूत ऋण / Unsecured Loan backed by intangible assets, such as charge over the rights, licenses, authority etc. taken as collateral security.	1648.24
(ii)	उक्त (i) को छोड़कर असुरक्षित ऋण / Unsecured Loans other than (i)	77891.39



ए-2.11 विविध

A-2.11 Miscellaneous

ए-2.11.1 वर्ष के दौरान कराधान हेतु किए गए प्रावधान की राशि

A-2.11.1 Amount of Provisions for Taxation during the year

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
संपत्ति कर एवं आस्थगित कर सहित करों हेतु प्रावधान	Provision for Tax including Wealth tax & deferred tax	(-)299.98	1348.14
घटाएं - पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल	Less : reversal of Tax Provisions relating to previous years	58.95	258.58
कर के लिए निवल प्रावधान	Net provision for Tax	(-)358.93	1089.56

ए-2.11.2 भारतीय रिजर्व बैंक/विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

A-2.11.2 Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

वर्ष के दौरान मुद्रा तिजोरी में अनियमितताओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ₹ 71201329 (93 मामले) (पिछले वर्ष कुल ₹ 54051869) का जुर्माना लगाया गया।

During the year, penalties of ₹ 71201329/- (93 cases) [Previous Year Total ₹ 54051869] were imposed by RBI on account of irregularities in currency chest.

विदेशी टेरिटोरियों के द्वारा निम्न गैर-अनुपालन किए जाने के कारण उनके विनियामकों के द्वारा कुल ₹ 58727000/- (पिछले वर्ष ₹ 7241000/-) का जुर्माना लगाया गया :-

Total penalties of ₹ 58727000/- [Previous Year Total ₹7241000] were levied on overseas territories by their respective regulator for non-compliances as under:-

विवरण Particulars	मामलों की संख्या No. of Cases	राशि रूप में Amount in Rupees	कारण Reasons
सेशेल्स Seychelles	1	42,27,000	गलत विवरणी, ऋणों का गलत वर्गीकरण तथा ग्राहकों को खाता विवरणी जारी नहीं करने के कारण For inaccurate Returns, wrong classification of loans and non-issuance of statement of accounts to customers.
दक्षिण अफ्रीका South Africa	1	5,45,00,000	नकदी थ्रेशोल्ड रिपोर्टिंग के अनुपालन, संदेहास्पद एवं अव्यावहारिक लेनदेन का पता लगाने तथा रिपोर्ट करने हेतु पर्याप्त प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करने में असफलता, Failure to comply with the cash threshold reporting, implement adequate processes and detect and report suspicious and unusual transactions.

ए-2.11.3 प्रायोजित तुलनपत्रेतर (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है)

A-2.11.3 Off-balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
घरेलू / Domestic	विदेशी / Overseas
चालू वर्ष/ Current Year	-
पिछला वर्ष / Previous Year	-

ए-2.11.4 प्रतिभूतिकरण

A-2.11.4 Securitization

क्र. सं. S.No.	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1.	प्रतिभूतिकरण संव्यवहार के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	No. of SPVs sponsored by the bank for Securitization transaction		
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतिकरण आस्तियों की कुल राशि	Total amount of Securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank		
3.	तुलनपत्र की तिथि को न्यूनतम धारण आवश्यकता (एमआरआर) के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि	Total amount of exposures retained by the bank to comply with minimum retention requirement (MRR) as on the date of Balance Sheet	शून्य NIL	शून्य Nil
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	a) Off-balance sheet exposures First Loss Others		
	बी) तुलनपत्र का एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	b) On balance sheet exposures First Loss Others		



क्र. सं. S.No.	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण अंतरण से एक्सपोजर की राशि	Amount of Exposures to securitization transactions other than MRR		
ए)	तुलनपत्रेतर जोखिम	a) Off-balance sheet exposures		
	i) अपने प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि हानि/अन्य	i) Exposures to own securitizations First Loss Loss/Others		
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	ii) Exposures to third party securitizations First Loss Others		
बी)	तुलनपत्र का एक्सपोजर	b) On-balance sheet exposures		
	i) अपने प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि हानि/अन्य	i) Exposures to own securitizations First Loss Loss/Others		
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	ii) Exposures to third party securitizations First Loss Others		

ए-2.12 दबावग्रस्त आस्तियों संबंधी प्रकटीकरण

A-2.12 Disclosure on Stressed Assets

ए-2.12.1 मौजूदा ऋणों के लचीले गठन का प्रकटीकरण

A-2.12.1 Disclosure of flexible structuring of Existing loans

	अवधि Period	लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers taken up for flexibly structuring	लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर वेटेड औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
			मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीले गठन लागू करने से पहले Before applying flexible structuring	लचीले गठन लागू करने के बाद After applying flexible structuring
कुल Total	चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च 18 तक) Current Financial Year (From April to March 18)	4	1423.93	266.29	-	-
	पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	3	427.61	0	-	-

ए-2.12.2 यथा 31.03.2018 को कार्यनीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना पर प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टिल अवधि में हैं).

A-2.12.2 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2018

	ऐसे खातों की संख्या, जहाँ एसडीआर सक्रिय किया गया है. No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जहाँ ऋण का इक्विटी में रुपांतरण लंबित है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जहाँ ऋण का इक्विटी में रुपांतरण हो गया है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
चालू वर्ष (कुल) Current Year (Total)	-	-	-	-	-	-	-
पिछले वर्ष (कुल) Previous Year (Total)	36	3202.48	4334.06	105.76	4106.76	3096.72	227.30



इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक के दि. 12.02-2018 के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी बीसी.101/21.04.048/2017-18 द्वारा वापस लिया गया है.

The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No.BP BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

ए-2.12.3 एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं).

A-2.12.3 Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

अंचल Zones	ऐसे खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन लागू करने का निर्णय लिया है. No. of accounts where banks have decided to Effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जहाँ ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना लंबित है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		जहाँ ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना हो गया है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		जहाँ नए शेयर जारी कर या प्रवर्तक की इक्विटी के विक्रय द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन हो गया है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
चालू वर्ष (कुल) Current Year (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पिछला वर्ष (कुल) Previous Year (Total)	2	99.74	0.00	-	-	-	-	99.74	-

इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक के दि. 12.02-2018 के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी बीसी.101/21.04.048/2017-18 द्वारा वापस लिया गया है.

The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No.BP BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

ए-2.12.4 अनुपालन के अंतर्गत परियोजना के स्वामित्व का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं).

A-2.12.4 Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	ऐसे परियोजना ऋण खातों की संख्या, जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन लागू करने का निर्णय लिया है. No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	मानक पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
चालू वर्ष Current Year	-	-	-	-
पिछला वर्ष Previous Year	-	-	-	-

आरबीआई के दिनांक 12-2-2018 के परिपत्र डीबीआर.नं. बीपी.बीसी. 101/21.04.048/ 2017-18 के अनुसार उस योजना को वापस ले लिया गया है.

The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

**ए-2.13 दिनांक 31.03.2018 को दबावग्रस्त आस्तियों के संधारणीय गठन की योजना पर प्रकटीकरण (एस4ए)**
**A-2.13 Disclosure on the scheme for sustainable structuring of Stressed Assets (S4A) as on 31.03.2018**

जहाँ एस4ए लागू किया गया है ऐसे खातों की संख्या Number of accounts where S4A has been applied	बकाया समग्र राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		रखा गया प्रावधान Provision held
		भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
		(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)		
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	1818.08	961.73	856.35	368.02
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	1292.68	1229.08	63.60	0.00
<b>कुल TOTAL</b>	<b>3110.76</b>	<b>2190.81</b>	<b>919.95</b>	<b>368.02</b>

आरबीआई के दिनांक 12-2-2018 के परिपत्र डीबीआर.नं. बीपी.बीसी. 101/21.04.048/ 2017-18 के अनुसार उस योजना को वापस ले लिया गया है।  
The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No .BPBC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

आरबीआई ने पत्र क्रमांक आरबीआई / 2017-18 / 131: डीबीआर सं. बीपी. बीसी.101 / 21.04.048 / 2017-18 दि.12 फरवरी 2018 के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया है तथा दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान हेतु मौजूदा फ्रेमवर्क जैसे कि दबावग्रस्त आस्तियों को नवीनीकृत करना, कार्पोरेट ऋण नवीनीकरण योजना, मौजूदा दीर्घावधि परियोजना ऋण को लचीला स्ट्रक्चरिंग , कार्यनीतिक ऋण स्ट्रक्चरिंग योजना (एसडीआर), एसडीआर के अलग स्वामित्व में बदलाव और तत्काल प्रभाव से दबावग्रस्त आस्तियों का दीर्घकालिक स्ट्रक्चरिंग (एस4ए) आदि मौजूदा दिशानिर्देशों / निर्देशों को वापस ले लिया है। इसी प्रकार से संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) जो दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए एक संस्थागत यांत्रिकी के रूप में कार्य करता था, उसे भी स्थगित कर दिया गया। संशोधित फ्रेमवर्क के अंतर्गत उन खातों के लिए जिनमें लाभ लेने के लिए इन योजनाओं में से किसी को आरंभ किया गया था लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया था और तदनुसार इन खातों को आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण पर मौजूदा आरबीआई विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

RBI vide letter RBI/2017-18/131: DBR. No.BP. BC.101/21.04.048/2017-18 dated February 12, 2018 issued a revised framework on Resolution of Stressed Assets and withdrew the existing guidelines/instructions on resolution of stressed assets such as framework for revitalizing Distressed Assets, Corporate Debt Restructuring Scheme, Flexible Structuring of Existing Long Term Project Loans, Strategic Debt Restructuring Scheme (SDR), Change in Ownership outside SDR, and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), etc. with immediate effect. Accordingly, the Joint Lenders Forum (JLF) as an institutional mechanism for resolution of stressed accounts also stands discontinued. Under the revised framework, the stand-still benefits for accounts where any of these schemes had been invoked but not yet implemented were revoked and accordingly these accounts have been classified as per the extant RBI prudential norms on Income Recognition and Asset Classification.

**ए-2.14 दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत खाते**

दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता के प्रावधानों के तहत कवर करने के लिए आरबीआईए के पत्र संख्या डीबीआर.सं. बीओ 15199 /21.04.048 / 2016-17 दि. 23 जून, 2017 के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (आयबीसी) के प्रावधानों के तहत 10 ऋण खातों को कवर किया गया जिसके कारण बैंक को अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार आरबीआई के पत्र क्रमांक डीआरएन.बीपी.1906 / 21.04.049 / 2017-18 दि. 28 अगस्त 2017 के संदर्भ में दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (एससी) की प्रक्रिया के तहत 18 ऋण खातों को कवर किया गया जिसके कारण बैंक को अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता पड़ी। भा.रि.बैं. के पत्र डीबीआर. नं. बीपी8756/21.04.048/2017-18 दि. 02.04.2018 अनुसार एनसीएलटी खातों के संबंध में प्रावधानीकरण आवश्यकता सुरक्षित अंश के 50% से कम हो कर 31 मार्च 2018 को 40 % हो गया है। बैंक ने अनुमत व उपलब्ध 40% रियायत प्राप्त की है। उक्त भा.रि.बैं. संसूचना अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर की गई पहली और दूसरी सूची में शामिल प्रावधानों को फैलाने के संबंध में, बैंक ने डिस्पेंसेशन का विकल्प उपलब्ध कराया है जिसके परिणामस्वरूप इन खातों में 31.03.2018 को ₹ 309.37 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

**A-2.14 Accounts under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)**

As per RBI directions for initiating Insolvency Process - Provisioning Norms vide letter No. DBR. No.BO.15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017 in respect of 10 borrower accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank was required to make additional provision. Similarly, as per RBI direction vide letter No. DR.No.BP.1906/21.04.049/2017-18 dated August 28, 2017 in respect of 18 borrower accounts covered under the process of IBC, the Bank was required to make additional provision. As per RBI vide letter DBR. No. BP 8756/21.04.048/2017-18 dated 02.04.2018, the provisioning requirements in respect of NCLT accounts is reduced from 50% of secured portion as at March 31, 2018 to 40%. Bank has availed the relaxation permitted and provided at 40%. As per the above RBI communication with respect to spreading the provisions covered in Ist and IInd list under the provisions of IBC, the Bank has availed the option of dispensation available, and as a result the additional provision of ₹.309.37 crores has been made as on March 31, 2018. Had the Bank



यदि बैंक ने रियायत हेतु विकल्प नहीं किया होता तो प्रावधान आवश्यकता 829.23 करोड़ होती।

not opted for the relaxation, the provision requirement would have been ₹.829.23 crore.

ए-3. प्रावधान व आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण

A-3 Break up of Provisions and Contingencies

ए-3.1 लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधान व आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण इस प्रकार है:

A-3.1 Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (निवल प्रलेखित तथा बट्टे खाते डाले गए सहित)	Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off)	768.20	29.31
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान (निवल प्रलेखित)	Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	14379.94	8006.95
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	-369.02	776.58
कर हेतु प्रावधान आस्थगित करों, और संपदा कर सहित (प्रावधानों के प्रत्यावर्तन का निवल)	Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions)	-358.93	1089.56
<b>अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं</b>	<b>Other Provision and Contingencies</b>		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	-168.23	-327.16
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	-22.34	-13.15
कर्मचारी कल्याण खर्च हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	25.00	25.00
अन्य (इसमें धोखाधड़ियों, बैंक के विरुद्ध दावों, संवेदनशील खातों आदि के प्रावधान शामिल हैं).	Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.)	182.74	4.84
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>14437.36</b>	<b>9591.93</b>

ए-3.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण

A-3.2 Floating Provisions – Comprehensive Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए. अस्थायी प्रावधान खाते में आरम्भिक शेष	a. Opening balance in the floating provisions account	425.35	425.35
बी. लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	b. The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
सी. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c. Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
डी. अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	d. Closing balance in the floating provisions account	425.35	425.35

ए-3.3 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर प्रावधान

A-3.3. Provision on Unhedged Foreign Currency Exposure–

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए. प्रारंभिक शेष प्रावधान खाता	a. Opening balance provisions account	72.95	79.02
बी. लेखा वर्ष में किये गये प्रावधान की राशि	b. The quantum of provisions made in the accounting year	--	--
सी. लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स की गयी राशि	c. Amount Reverse during the accounting year	31.11	6.07
डी. प्रावधान खाते का अंतिम शेष	d. Closing balance in the provisions account	41.84	72.95

दिनांक 31.03.2018 तक बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के सापेक्ष में बैंक का अग्रिम एक्सपोजर ऋणकर्ता का 80 बीपीएस प्रावधान ₹ 2925.35 करोड़ था. ₹ 64.71 करोड़ के अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के सापेक्ष में एक्सपोजर पर ₹ 595.02 करोड़ आरडब्ल्यूए किया गया.

As on 31.03.2018, the amount of bank's credit exposure against Unhedged Foreign Currency Exposure of borrowers attracting 80 bps provisions was ₹ 2925.35 Crores. The additional RWA on this exposure is ₹ 595.02 crores against this additional minimum capital requirement is ₹ 64.71 crores.

**ए-3.4 आरक्षित निधियों में गिरावट (ड्राडाउन)**

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आरक्षित निधियों में कोई गिरावट (ड्राडाउन) नहीं हुई है (पिछले वर्ष-शून्य).

**A-3.4 Draw Down from Reserves**

During the Financial Year 2017-18, there has been no draw down from the reserves (Previous Year – NIL).

**ए- 4. शिकायतों का प्रकटीकरण**
**A-4 Disclosure of complaints**
**I. ग्राहक शिकायत**
**I. Customer Complaints**

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए. वर्ष के शुरु में लंबित शिकायतों की संख्या	a. No. of complaints pending at the beginning of the year	302	121
बी. वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	b. No. of complaints received during the year	1056041	48504
सी. वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	c. No. of complaints redressed during the year	1042803	48323
डी. वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	d. No. of complaints pending at the end of the year	13540	302

\* इनमें से 13476 शिकायतें (गत वर्ष 302 शिकायतें) 30 दिनों से कम पुरानी हैं.

\* Out of these, 13476 nos. of complaints (Previous year 302 nos.) are pending for less than 30 days.

**II. एटीएम संबंधी शिकायतें**
**II. ATM Complaints**

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए. वर्ष के शुरु में एटीएम संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	a. No. of ATMs complaints pending at the beginning of the year	2067	2338
बी. वर्ष के दौरान एटीएम संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या	b. No. of ATMS complaints received during the year	326458	277300
सी. वर्ष के दौरान एटीएम संबंधी निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	c. No. of ATMs complaints redressed during the year	323061	277571
डी. वर्ष के अंत में एटीएम संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	d. No. of ATMs complaints pending at the end of the year	5464	2067

**III. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय**
**III. Awards passed by the Banking Ombudsman**

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए. वर्ष के शुरु में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	a. No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2	0
बी. वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या	b. No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	3	11
सी. वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	c. No. of Awards implemented during the year	5	9
डी. वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	d. No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	2

**ए-5. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति**
**A-5. Status of Letters of Comfort**
**(I) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)**

बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियामकों द्वारा अपने विदेशी अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों के परिचालन को समर्थित करने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया.

**I Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year**

During the current financial year, the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/domestic regulators to support the operations of its overseas subsidiaries/ Joint ventures.



(II) 31.03.2018 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति बैंक ने निम्नलिखित आश्वासन पत्र जारी किया है.

- (i) अपने जमाकर्ताओं व अन्य ऋणदाताओं को पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली अनुषंगी- बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. के संपूर्ण कर्ज को गारंटीकृत करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड को 2008-09 के दौरान चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया. यथा मार्च 2018 को अनुषंगी की जमा-राशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक के जमा के एवज में ऋण का निवल) ₹ 269.35 करोड़ हैं तथा बाह्य देयता ₹ 4.95 करोड़ हैं (यथा, ₹ 274.30 करोड़ की कुल देयता). यथा 31 मार्च 2018 को अनुषंगी की निवल मालियत ₹ 221.57 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 208.50 करोड़). इस संबंध में बैंक पर निवल आकस्मिक देयता ₹ 52.73 करोड़ हैं.
- (ii) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक ऑफ नेगारा मलेशिया को आश्वासन पत्र जारी किया है. दिनांक 31.03.2018 को आईआईबीएमबी की कुल जमा राशि ₹ 193.93 करोड़ एवं अन्य देयताएं ₹ 11.61 करोड़ (अर्थात् कुल ₹ 205.54 करोड़ की कुल देयताएं) हैं. दिनांक 31.03.2018 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹ 540.45 करोड़ है. चूंकि आईआईबीएम के वित्तीय वर्ष का अंत 31 दिसंबर को होता है, 31 मार्च 2018 के आंकड़े अलेखापरीक्षित विवरण से लिए गए हैं.

II Cumulative position of LOC's outstanding as on 31.03.2018

The Bank has issued the following Letter of Comforts

- (i) LOC issued during 2008-09 to Reserve Bank of New Zealand guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary – Bank of Baroda (New Zealand) Ltd to its depositors and other creditors. As on 31<sup>st</sup> March 2018 the subsidiary's deposits ( net of overdraft and loan against Bank's own deposits) are ₹ 269.35 crore and outside liabilities are ₹ 4.95 crores ( i.e. total liabilities of ₹ 274.30 crore). The net worth of the subsidiary as on 31<sup>st</sup> March 2018 is ₹ 221.57 crore (Previous year ₹ 208.50 crores). The net contingent liability on Bank is ₹ 52.73 crore in this regard.
- (ii) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia upto our bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank – 'India Internation Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB). As on 31<sup>st</sup> March, 2018, the deposits of IIBMB are ₹ 193.93 crore and other liabilities are ₹ 11.61 crore (i.e. Total liabilities of ₹ 205.54 crore). The net worth of the IIBMB as on 31<sup>st</sup> March 2018 is ₹ 540.45 crore. As the financial year end of IIBMB is 31<sup>st</sup> December, figures of 31<sup>st</sup> March 2018 have been taken from unaudited statement.

ए-6 तीसरी पार्टी के उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

A-6 Income earned for marketing third party products

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

आय की प्रकृति	Nature of Income	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling life insurance policies	59.66	28.72
गैर जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling non life insurance policies	33.91	18.56
म्यूच्युअल फंड प्रोजेक्टों की बिक्री हेतु	For selling mutual fund products	15.98	5.79
इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद	Equity broking product	0.33	0.00

ए-7 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

A-7 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	Opening balance of amount transferred to DEAF	403.77	316.60
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	Add: Amount transferred to DEAF during the year	36.05	87.63
घटायें: डीईएएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गयी राशि	Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	10.51	0.45
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing Balance of amounts transferred to DEAF	429.31	403.77





A-8 Liquidity Coverage Ratio  
A-8.1 Quantitative Disclosure

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण - मार्च 2018  
Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure - March 2018

बैंक का नाम: बैंक ऑफ़ बड़ोदा  
Name of the Bank : Bank of Baroda

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure	मार्च, 2018 को वार्षिक औसत (समोक्त आधार पर) Yearly Average March 2018 (Solo basis)		मार्च, 2017 को समाप्त वृद्धि तिमाही के लिए दैनिक औसत (एकल आधार पर) Quarterly Averages of Financial Year Ending March 2017 (Consolidated Basis)	
	कुल नै-भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल नै-भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value
<b>उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ</b> Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	1,11,270.61	1,16,477.40	1,05,846.12	1,07,222.13
<b>नकद बाह्यप्रवाह</b> Cash Outflows				
1 रिटेल जमा एवं छोटे व्यावसायिक ग्राहकों की जमाशियाँ/जिनमें से रिश्वर जमाशियाँ	380725.00	34224.75	403168.68	35779.78
2 रिटेल जमा एवं छोटे व्यावसायिक ग्राहकों की जमाशियाँ/जिनमें से रिश्वर जमाशियाँ	76954.94	3847.75	90741.67	4537.08
3 असुरक्षित शोक निधि/जिनमें से: (i) परिवारगत जमाशियाँ (सभी काउंटर पार्टियों की) (ii) नेचर परिव्यालनात जमाशियाँ (सभी काउंटर पार्टियों की)	303770.06	30377.01	312427.01	31242.70
(i) असुरक्षित शोक निधि/जिनमें से: (ii) नेचर परिव्यालनात जमाशियाँ (सभी काउंटर पार्टियों की)	129997.29	72620.47	136255.91	78054.27
(ii) नेचर परिव्यालनात जमाशियाँ (सभी काउंटर पार्टियों की)	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) अप्रत्याभूत ऋण	129997.29	72620.47	136255.91	78054.27
4 प्रत्याभूत शोक वित्तियन	0.00	0.00	0.00	0.00
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से (i) डेरीविटिव एक्सपोजर तथा अन्य संगार्थिक आवश्यकताओं से संबंधित बाह्य प्रवाह (ii) ऋण उत्पादों पर निधियों की हानि संबंधित बाह्य प्रवाह (iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं	5075.52	0.00	4962.32	1271.30
(i) डेरीविटिव एक्सपोजर तथा अन्य संगार्थिक आवश्यकताओं से संबंधित बाह्य प्रवाह	44861.48	20980.45	54048.94	25617.90
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियों की हानि संबंधित बाह्य प्रवाह	391.36	391.36	3427.99	3427.99
(iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं	0.00	0.00	0.00	0.00
6 अन्य सौदागत निधि/जिनमें से: (i) अंतर-संस्थागत निधि/जिनमें से (ii) अन्य आकस्मिक निधि/जिनमें से (iii) अन्य सौदागत निधि/जिनमें से	44470.12	20589.09	50820.94	22189.91
(i) अंतर-संस्थागत निधि/जिनमें से	791.37	791.37	777.62	777.62
(ii) अन्य आकस्मिक निधि/जिनमें से	56662.27	1700.58	57850.44	1742.01
(iii) अन्य सौदागत निधि/जिनमें से	6102.79	6096.26	7544.14	7488.22
7 कुल नकदी बाह्य प्रवाह	618112.93	130317.62	657063.90	141971.59
8 कुल नकदी बाह्य प्रवाह	18229.77	1.45	17149.73	11.08
9 प्रत्याभूत उधार देना (जैसे, शेक्स रेपो)	25787.85	22984.28	32246.72	26716.58
10 पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर्स से उत्पन्न बाह्य प्रवाह	6102.79	6096.26	7544.14	7488.22
11 अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	50120.41	29081.99	56940.59	34215.88
12 कुल नकदी अंतर्प्रवाह	कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	1,11,270.61	कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	1,16,477.40
13 कुल एचएलएलए	1,11,270.61	1,16,477.40	1,05,846.12	1,07,222.13
14 कुल निवल नकदी बाह्य प्रवाह	1,01,235.62	1,07,755.70	81,782.33	83,390.26
15 चलनिधि कवरेज अनुपात	109.91%	108.09%	129.42%	128.58%

नोट: मौजूदा दिशानिर्देशों अनुसार 1 जनवरी 2016 व उसके बाद से भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर समोक्त आधार पर प्रकटीकरण लागू है, जनवरी 2017 के आरंभ से बैंक को दैनिक औसत आधार पर एलसीआर प्रकटीकरण करना है, अतः बैंक ने मार्च 2017 से एकल व समोक्त स्तर, दोनों के लिए दैनिक औसत आधार पर एलसीआर प्रकटीकरण किया है, जिसमें व्ही, व्ही, व्ही हेतु दैनिक औसत एवं व्ही हेतु दैनिक औसत शामिल है।  
Note :- In terms of extant guideline disclosure on consolidated basis is applicable to the Indian banking system from 1st January 2016 and onwards. As starting from January 2017, banks has to disclose LCR on daily average basis, hence bank has computed LCR on daily average basis both for Solo and Consolidated Level since March 2017. Bank has also disclosed LCR for the financial year ending March 2017, which consisted of monthly averages for Q1, Q2, Q3 and daily averages for Q4.



ए. 8.2. गुणात्मक प्रकटीकरण

01 जनवरी 2015 से बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि उसे अत्यधिक तरलता संबंधी तनाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नकदी परिवर्तित किया जा सके. एलसीआर तथा निगरानी संबंधी उपाय प्रारंभ में दि. 1 जनवरी 2015 से भारतीय बैंकों के लिए समग्रतः बैंक स्तर पर लागू है अर्थात् शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर लागू हैं एवं बाद में दि. 1 जनवरी 2016 से समेकित आधार पर अर्थात् घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियों सहित लागू होंगे.

एलसीआर के दो घटक हैं:

- (i) दबावग्रस्त स्थितियों में उच्च-गुणवत्ता तरल अस्तियों (एचक्यूएलए)के स्टॉक का मूल्य - न्यूनरेटर (अंश-गणक)
- (ii) कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह: लगातार 30 कैलेंडर दिनों (दबावग्रस्त अवधि) के लिए विनिर्दिष्ट दबावग्रस्त परिदृश्य में 'कुल अनुमानित नकद बहिर्प्रवाह' में से 'कुल अनुमानित नकद अंतर्प्रवाह को घटाकर 'कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह' परिभाषित होता है- डिनॉमिनेटर (विभाजक)

**एलसीआर = उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों का स्टॉक/ अगले 30 कैलेंडर दिनों के दौरान कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह >= 100%**

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, एलसीआर चरणबद्ध रूप में लागू किया जाएगा जो 01 जनवरी 2015 से न्यूनतम 60% से आरंभ होकर 01 जनवरी 2019 तक न्यूनतम 100% तक होगा.

A-8.2 Qualitative Disclosure:

From 1<sup>st</sup> January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR and monitoring tools are applicable for Indian banks initially w.e.f. 1<sup>st</sup> January 2015 at whole bank level only i.e. on a stand-alone basis including overseas operations through branches and subsequently at consolidated basis w.e.f. 1<sup>st</sup> January 2016 i.e. including domestic and overseas subsidiaries.

The LCR has two components:

- (i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions- the numerator.
- (ii) Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period) the denominator.

**LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days >= 100%**

According to RBI, the LCR will be introduced in a phased manner starting with a minimum requirement of 60% from January 1, 2015 and reaching minimum 100% on January 1, 2019

	जनवरी 01, 2015 January 1 2015	जनवरी 01, 2016 January 1 2016	जनवरी 01, 2017 January 1 2017	जनवरी 01, 2018 January 1 2018	जनवरी 01, 2019 January 1 2019
न्यूनतम एलसीआर Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

\*भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष मार्च, 2016 के लिए एलसीआर प्रकटीकरण एकल आधार पर किया है. दिनांक 1 जनवरी 2016 से भारतीय बैंकिंग उद्योग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण के लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 2017 से शुरु होने वाले वर्ष के लिए बैंक को एलसीआर प्रकटीकरण दैनिक औसत के आधार पर करना है, इसलिए बैंक ने मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समेकित दोनों आधार पर दैनिक औसत पर एलसीआर की गणना की है. बैंक ने मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भी एलसीआर प्रकटीकरण किया है. जिसमें तिमाही 1, तिमाई 2 एवं तिमाही 3 के लिए मासिक औसत पर तिमाई 4 के लिए दैनिक औसत पर शामिल है.

\*As per the RBI guidelines dated 31<sup>st</sup> March 2015, the Bank has made LCR disclosure on solo basis for the financial year ending March 2016. In terms of extant guideline disclosure on consolidated basis is applicable to the Indian banking system from 1<sup>st</sup> January 2016 and onwards. As starting from January 2017, banks has to disclose LCR on daily average basis, hence bank has computed LCR on daily average basis both for Solo and Consolidated Level since March 2017. Bank has also disclosed LCR for the financial year ending March 2017, which consisted of monthly averages for Q1, Q2, Q3 and daily averages for Q4.

एचक्यूएलए की संरचना

मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक औसत के आधार पर अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियाँ एचक्यूएलए का अधिकतम हिस्सा अर्थात् 40.02% है उसके बाद तरलता कवरेज अनुपात का लाभ उठाने हेतु सुविधा, जो कि एचक्यूएलए का 34.51% है. स्तर-2 की आस्तियाँ जोकि स्तर-1 की आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में निम्न हैं, वह 40% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के सामने कुल एचक्यूएलए का 0.74% है.

Composition of HQLA

Based on daily averages for the quarter ended March 2018, Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion of HQLA i.e 40.02% followed by excess SLR securities which constitute 34.51%. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute nominally 0.74% of total stock of HQLA against maximum mandated level of 40%.

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	High Quality Liquid Assets (₹HQLAs)	एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत Average percentage contribution to HQLA
लेवल 1 आस्तियां	Level 1 Assets	
हाथ में नकदी	Cash in hand	3.60%
आधिक्य सीआरआर शेष	Excess CRR balance	8.10%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियां	Government Securities in excess of minimum SLR requirement	34.51%
एमएसएफ के द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक)	Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL as allowed for MSF)	9.56%
बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% रिस्क वेटेड वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गयी अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियां (मेमो क.सं. के अंतर्गत देशवार विवरण)	Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach (country-wise details to be provided under memo item no.1)	3.47%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता हेतु सुविधा (वर्तमान में एमएफएस के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 8 प्रतिशत सीमा तक)	Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (presently to the extent of 9 per cent of NDTL as allowed for MSF)	40.02%
कुल समायोजित लेवल 1, आस्तियां	Total Adjusted Level 1 Assets	99.26%
कुल लेवल 2ए आस्तियां	Total Adjusted Level 2A Assets	0.25%
कुल लेवल 2बी आस्तियां	Total Adjusted Level 2B Assets	0.49%
एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी -15% सीमा के समायोजित - 40% सीमा के समायोजित.	Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B – Adjustment for 15% cap – Adjustment for 40% cap	100.00%

#### अंतः अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन

90% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष में जनवरी 2018, फरवरी 2018 तथा मार्च 2018 में एलसीआर क्रमशः 91.84%, 124.90% तथा 107.44 % था.

#### निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

निधियों के स्रोतों का कोई अनुचित संकेन्द्रण नहीं पाया गया और न ही निधियों के स्रोतों में जोखिम के संकेन्द्रण के परिप्रेक्ष्य में कोई काउंटर-पार्टियां महत्वपूर्ण रहीं. किसी भी काउंटर पार्टी का हिस्सा बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक न था. महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि-एक एकल काउंटर पार्टी या महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों का जुड़ा हुआ या संलग्न समूह, जिनका कुल हिस्सा बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है.

उसी प्रकार कोई भी लिखत/उत्पाद बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक का नहीं है. एक महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि- एक सिंगल लिखत/उत्पाद या वैसे ही लिखतों/उत्पादों का समूह, जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. निधिगत लिखत/उत्पादों का उदाहरण-हॉलसेल जमा-राशियां जमा-राशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घावधि के आवधिक बॉन्ड इत्यादि. बैंक के एकल आधारित सर्वोच्च 20 जमाकर्ता का जमा हमारी कुल जमा राशियों का 4.85% हैं.

#### Intra-period changes as well as changes over time:

LCR were 91.84%, 124.90% and 107.44% as at the months ended January 2018, February 2018 and March 2018 respectively as against the minimum regulatory requirement of 90%

#### Concentration of funding sources

There has been no undue concentration of funding sources and no counterparty is significant in terms of concentration risk in sources of funds. No counterparty contributes more than 1% of the bank's total liabilities. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Similarly no instrument/product constitutes more than 1% of the bank's total liabilities. A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds, etc. Top 20 depositors of the bank on solo basis constitute 4.85% of our total deposits.



डेरिवेटिव एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉल:  
यथा 31 मार्च 2018 को बैंक का डेरिवेटिव एक्सपोजर निम्न अनुसार है:

Derivative exposures and potential collateral calls:  
The bank's derivative exposure as on 31<sup>st</sup> March 2018 is as under:

क्रम सं S.No.	विवरण	Description	(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)
1	डेरिवेटिव एक्सपोजर की काल्पनिक राशि	Notional amount of Derivative exposure	185945.57
2	चालू एक्सपोजर पद्धति के अनुसार एक्सपोजर	Exposure as per Current Exposure method	4451.81
3	अगले 30 दिनों के लिए डेरिवेटिव एक्सपोजर	Expected outflow for Derivative exposure for next 30 days	308.48

**एलसीआर में मुद्रा-मिसमैच:**

सभी महत्वपूर्ण मुद्राओं के लिए हम मुद्रा वार एलसीआर की गणना करते हैं. महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जहां उस मुद्रा में सकल देयताओं की मूल्य-राशि बैंक की कुल देयताओं का 5% या अधिक हो, जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो, जीबीपी एवं अन्य.

मार्च 2018 माह समापन को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्राओं के लिए एलसीआर निम्नानुसार है:

क्रम सं / S.No.	मुद्रा / Currency	एलसीआर का स्तर / LCR level
1	यूएसडी / USD	247.59%
2	जीबीपी / GBP	0.72%
3.	ईयूआर / EUR	12.67%

**Currency mismatch in the LCR:**

Bank calculates currency wise LCR for all significant currencies. A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities viz USD, EURO, GBP and others.

The LCR for the significant foreign currencies as at the month ended March 2018 is as under:

**चलनिधि प्रबंधन की केंद्रीयकरण की डिग्री का विवरण तथा समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक संवाद.**

उद्यमवार आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेवारी निदेशक मंडल की है. निदेशक मंडल अपनी यह जिम्मेवारी निदेशक मंडल की समिति को जिसे 'जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल' कहा जाता है, सौंप देता है. यह समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच सहबद्धता परीक्षण के लिए उत्तरदायी है.

हमारे बैंक में ए.एल.एम. पॉलिसी ग्रुप है जो समूह के भीतर चल निधि एवं ब्याज दर जोखिम को संचालित करने के लिए बृहद दिशा निर्देश देता है. विदेशों में परिचालित बैंक की इकाइयां अपनी परिचालन चल निधि या अल्पावधि चल निधि लगातार आधार पर या स्वयं ही प्रबन्ध कर लेती है. बैंक की चलनिधि एवं / विदेशी व्यापार के ब्याज जोखिम प्रबंधन की मॉनिटरिंग बैंक के जोखिम प्रबन्धन विभाग के ग्लोबल मिड ऑफिस द्वारा की जाती है.

ए.एल.एम. समूह की पॉलिसी के संबंध में दिशा निर्देश, जब तक कि विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो, विदेशी परिचालनों में भी लागू किए जाते हैं. बैंक की सभी वैधानिक संस्थाएं अर्थात अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी लगातार अपने निजी प्रयासों से अपने व्यवसाय मॉडल तथा चल निधि आवश्यकता के अनुसार अपना प्रबन्ध करती है. वे अपनी निजी ए.एल.एम पॉलिसी रखते हैं. चूंकि वैधानिक संस्थाएं बैंकिंग व्यवसाय करती हैं. वे उस देश के दिशा-निर्देशों साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों-इनमें से जो ज्यादा कड़े हैं, उनके अनुसार कार्य करती हैं.

**Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:**

The liquidity management for the Bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The Committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has Group ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the Group operate in terms of liquidity and interest rate risk. The bank's entities operating in foreign countries manage their operational liquidity or liquidity in the short-term on their own on an ongoing basis as per both respective territory's ALM policy and Group ALM policy. The monitoring of liquidity and interest rate risk management of the overseas operations of the bank is being done by the Bank's Global Mid-Office (ALM Cell) of Risk Management Department.

The guidelines of the Group ALM policy, unless otherwise specifically exempted, apply to overseas operations as well. All the legal entities of the bank i.e.-subsidiaries, joint ventures and associates manage their operational liquidity on an ongoing basis at their own according to their business models and liquidity requirement. As to the legal entities carrying out banking business, they have their own ALM Policy in line with the host country guidelines as well as RBI guidelines whichever is more stringent

बी. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

बी 1 एएस-5 अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि, पूर्व अवधि हेतु मद तथा लेखनीतियों में परिवर्तन

### लेखांकन नीति (एएस-5) में परिवर्तन

वर्ष के दौरान मूल बैंक ने एनपीए खातों में हुई वसूली के विनियोग की विधि में परिवर्तन किया है, जिसमें वसूली अब प्रभारों, अनुपयुक्त ब्याज एवं अंत में मूलधन के रूप में मूलधन वसूली एवं समायोजन की पुरानी विधि के एवज में समायोजित की जा रही है. इसके परिणामस्वरूप सकल एनपीए ₹ 1496.71 करोड़ से, ब्याज आय ₹ 1496.71 करोड़ से और प्रावधान व करो में लगभग ₹ 1085.65 करोड़ से संवृद्ध हुआ है. इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹ 411.06 करोड़ की हानि दर्ज हुई है.

बी-2. एएस-15 कर्मचारी लाभ

बी-2.1 बैंक ने 07.12.2006 से प्रभावी आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (ए.एस.-15) को अपनाया है. यह मानक दिनांक 17.12.2007 को संशोधित एवं अधिसूचित किया गया.

बी-2.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो कि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त अथवा प्रारंभिक पाँच वर्षों की सेवाओं के बाद सेवात्याग करते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. बैंक प्रत्येक वर्ष भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिंग के लिए एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है. ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, परिलक्षित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है. निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना 3 विभिन्न योजनाओं के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता निर्धारण जो योजना कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है.

बी-2.3 पेंशन

बी-2.3.1 बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को या उसके बाद परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार संभाला है, उन्हें विनिर्दिष्ट लाभ तथा सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करता है. यह योजना कर्मचारियों को बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अधीन उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् मासिक आधार पर पेंशन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है. बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है.

बी-2.3.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का दुबारा विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संयुक्त और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

B-1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies

### Change in Accounting Policy (AS-5)

During the year, the bank has changed the method of appropriation of recovery in NPA accounts, where recoveries are now being adjusted against charges, interest reversed, unapplied interest and lastly against principal as against the earlier method of adjusting recoveries against principal, expenses and unapplied interest. This has resulted in increase of Gross NPA by ₹1496.71 crore, increase of interest income by ₹1496.71 crore and increase in provision and tax approximately by ₹1085.65 crore. This has resulted in the loss for the year being lower by ₹411.06 crore.

B-2 AS-15 Employee Benefits

B-2.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI, effective from 07.12.2006. The standard has been revised and notified on 17.12.2007.

B-2.2 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who retire or resign from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes and the entitlement is based on what is most beneficial to employees

B-2.3 Pension

B-2.3.1 Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund

B-2.3.2 New Pension Scheme

In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are



दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, जो कि बैंक ने संयुक्त नोट/समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू की है। यह योजना दिनांक 01.01.2004 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी तथा समय-समय पर यथासंशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से ही नियंत्रित होती है। अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं। दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवाओं में प्रवेश करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में कुल परिलब्धियों से मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती की जाती है और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जा रहा है।

#### बी-2.4 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए अपने कर्मचारियों, जो 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व सेवा में आए हैं, के सेवा निवृत्ति लाभों के एक भाग के रूप में भविष्य निधि की देखरेख सांविधिक आवश्यकता है। इस निधि का प्रबंधन आंतरिक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान किया जाता है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा उस राशि के बराबर राशि इस निधि में अंशदान करता है। इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

#### बी-2.5 छुट्टी नकदीकरण

कर्मचारी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश का अधिकतम 240 दिनों के अधीन नकदीकरण के पात्र है।

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टियों के 50% तक का अधिकतम 120 दिनों के अधीन नकदीकरण के पात्र है।

#### बी-2.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि एक अधिकारी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने का पात्र होगा, बशर्ते अधिकारी बॉब अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गयी शर्तों को पूरा करता है।

उसी प्रकार अवार्ड स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने का पात्र होगा, बशर्ते उसने बैंक में 30 वर्षों की सेवाएँ पूरी की हो।

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे किए हों।

eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010, similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f. 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank, who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution by the Bank is being made.

#### B-2.4 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the fund. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

#### B-2.5 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

#### B-2.6 Additional Retirement Benefit (ARB)

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer on Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the officers satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.

**बी-2.7 प्रकटीकरण**

मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

**B-2.7 Disclosures**

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्युटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	7.71%	7.71%	7.71%	7.71%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मूल्यहास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न रेट	Expected Rate of Return on plan Assets	8.00%	N/A	8.00%	N/A

मृत्यु दर : आईएएलएम (2006-2008)

Mortality Rate : IALM (2006-2008)

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक ने पत्र दि. 24 मार्च 2014 के अनुसार बैंक में अधिवर्षिता योजनाओं के लिये प्रावधान किया है. प्रबंधन का विचार है कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र के अनुसार बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है.

Note: The bank has provided for superannuation schemes as per the RBI letter dated March 24, 2014. The management is of the view that they have made adequate provision as per the RBI letter based on the actuarial valuation.

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का मिलान

Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्युटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
1/4/2016 को पीवीओ	PVO as at 01.04.2016	12811.00	906.96	1349.82	346.81
जोड़ें: ब्याज की लागत	Add- Interest Cost	951.37	64.89	94.24	23.92
जोड़ें: पिछला सेवा लागत	Add- Past Service Cost			388.30	
जोड़ें: चालू सेवा लागत	Add- Current Service Cost	1168.24	47.57	105.45	10.56
घटायें: प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	943.00	130.61	255.00	55.68
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकक हानि/लाभ (-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	(-) 630.44	(-) 10.29	(-) 4.49	5.44
<b>31.03.2018 को पीवीओ</b>	<b>PVO as at 31.03.2018</b>	<b>13357.19</b>	<b>878.52</b>	<b>1678.33</b>	<b>331.05</b>

योजनागत आस्तियों के समुचित मूल्य के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान

Reconciliation of opening &amp; closing balance of fair value of plan assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN	
		पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
01.04.2016 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of plan assets as on 01.04.2017	12637.67	1239.77
जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	Add- Expected Return on Plan Assets	1011.01	99.18
जोड़ें: अंशदान	Add- Contributions	271.40	110.06
घटायें: प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	943.00	255.00
जोड़ें: बीमांकक लाभ / (-) हानि	Add- Actuarial gain/(-)loss	124.61	(-) 8.43
<b>31.03.2018 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य</b>	<b>Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2018</b>	<b>13101.69</b>	<b>1185.58</b>



तुलन-पत्र में हिसाब में ली गयी राशि

Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्युटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
ए) 31.03.2018 को दायित्व का पीवी	a) PV of obligation as on 31.03.2018	13357.19	878.52	1678.33	331.05
बी) योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	b) Fair value of plan assets	13101.69	--	1185.58	--
सी) अन्तर	c) Difference	255.50	878.52	492.75	331.05
डी) अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	d) Unrecognised transitional liability	--	--	291.23	--
ई) तुलनपत्र में मान्य देयता	e) Liability Recognised in the BS	<b>255.50</b>	<b>878.52*</b>	<b>201.52</b>	<b>331.05</b>
(*पूर्ण राशि हेतु बही में प्रावधान)					(* Provision made in books for full amount)

लाभ-हानि खाते में हिसाब में ली गयी राशि

Amount recognized in the P & L Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्युटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
ए) चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	1168.24	47.57	105.45	10.56
बी) पूर्व सेवा लागत	b) Past Service Cost			388.30	
सी) ब्याज लागत	c) Interest Cost	951.37	64.89	94.24	23.92
डी) योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	d) Expected Return on Plan Assets	1011.01	0.00	99.18	0.00
इ) निवल बीमांकिक हानि/लाभ (-)	e) Net Actuarial Loss/gain(-)	-755.04	-140.90	3.94	-50.24
एफ) वर्ष के दौरान संक्रमणशील देयता	f) Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	291.23	0.00
<b>लाभ व हानि खाते में निर्धारित खर्च</b>	<b>Expenses Recognized in P&amp;L</b>	<b>353.56</b>	<b>28.44</b>	<b>201.52</b>	<b>-15.76</b>

निवेश पैटर्न: (% में)

Investment Pattern: (In %)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	Central Govt. Securities	3.23	20.67
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	State Government Securities	0.50	24.00
कार्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	7.16	10.83
कार्पोरेट (निजी)	Corporate (Private)	2.76	--
बीमा	Insurance	85.44	44.50
अन्य	Others	0.91	--
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

प्रबंधन के पास उपलब्ध डेटा अनुसार

As per the data available with management

**2.8** भारतीय रिजर्व बैंक ने पत्र क्रमांक डीबीआर संख्या बीपी 9730 / 21.04.018 / 2017-18 दि. 27.04.2018 के माध्यम से 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से चार तिमाहियों तक ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है. बैंक ने इस छूट का लाभ उठाया है तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान इस देयता के एक चौथाई यथा ₹ 97 करोड़ का प्रावधान किया है. शेष राशि ₹ 291 करोड़ का प्रावधान आगामी 3 तिमाहियों में किया जाएगा.

**2.8** RBI vide letter DBR No. BP 9730/21.04.018/2017-18 dated 27.04.2018 permitted Banks to spread the additional liability on account of the enhancement in gratuity limits over four quarters beginning with the quarter ended March 31, 2018. The bank has availed the relaxation permitted and has provided an amount of ₹ 97 crore being one fourth of the liability during the quarter ended March 31, 2018. The balance of ₹ 291 crore has been deferred to the subsequent three quarter



**बी-3. (ए.एस.-17) सेगमेंट रिपोर्टिंग :**

भाग - ए : कारोबार खंड

**B-3 AS-17 Segment Reporting**

Part A – Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

कारोबार खंड	Business segment	ट्रेजरी		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विवरण	Particulars	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
राजस्व	Revenue	16777.99	17571.51	18706.92	18824.97	14360.20	11967.05	460.58	594.46	50305.69	48957.99
परिणाम	Result	2641.56	4771.84	-4490.85	(2879.70)	1440.45	2444.63	335.94	438.50	-72.90	4775.27
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									2717.84	2302.57
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									-2790.74	2472.70
आयकर	Income taxes									-358.93	1089.56
विशिष्ट लाभ/हानि	Extra-Ordinary Profit/Loss									--	--
निवल लाभ	Net Profit									-2431.81	1383.14
अन्य सूचना	Other Information									--	--
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	268099.12	283240.71	311342.07	291020.91	130111.77	109754.47	0.00	0.00	709552.96	684016.09
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									10446.81	10859.33
कुल आस्तियां	Total Assets									719999.77	694875.42
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	251940.64	266812.55	292577.32	274141.50	122269.86	103388.63	0.00	0.00	666787.82	644342.68
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									9817.18	10229.49
कुल देयताएं	Total Liabilities									676605.00	654572.17
नियोजित पूंजी	Capital employed	16158.48	16428.16	18764.75	16879.41	7841.91	6365.83	0.00	0.00	42765.14	39673.40
अनाबंटित	Unallocated									629.63	629.85
कुल पूंजी	Total Capital									43394.77	40303.25

**भाग - बी : भौगोलिक खंड :**
**Part B – Geographic Segments**

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सेगमेंट	Segments	घरेलू		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विवरण	Particulars	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
राजस्व	Revenue	45342.56	43787.54	4963.13	5170.45	50305.69	48957.99
आस्तियां	Assets	553287.16	492400.63	166712.61	202474.79	719999.77	694875.42

**बी-4 एस-27 संयुक्त उद्यम में हितों का प्रकटीकरण**

एस 27 की आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार है:

**B – 4 AS -27 Disclosure of Interest in Joint Ventures**

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

नाम	देश जहां विद्यमान है	निवेश की स्वरूप	स्वामित्व का % / % of ownership	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
Name	Country of Incorporation	Nature of Investments	Current Year	Previous Year
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि.	भारत / India	संयुक्त उद्यम	44	44
India First Life Insurance Company Ltd		Joint Venture		
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.	मलेशिया / Malaysia	संयुक्त उद्यम	40	40
India International Bank (Malaysia) Bhd		Joint Venture		
इंडिया इन्फ्राडेब्ट लि.	भारत / India	संयुक्त उद्यम	36.86	30
India Infradebt Ltd.		Joint Venture		



(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 तक As at March 31, 2018	31 मार्च 2017 तक As at March 31, 2017
देयताएं	Liabilities		
पूंजी एवं राजस्व	Capital & reserve	819.84	568.00
जमाएं	Deposits	76.15	93.53
ऋण	Borrowings	2663.4	1261.50
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & provisions	5550.71	4741.60
कुल	Total	9110.10	6664.63
आस्ति	Asset		
नकदी तथा आरबीआई के पास जमाशेष	Cash and Balances with RBI	0.77	1.56
बैंक के पास जमाशेष तथा मांगे जाने तथा अल्प सूचना पर देय राशि	Balances with banks and Money at call and short notice	420.57	378.11
निवेश	Investments	6963.76	5632.56
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	1411.29	455.73
स्थायी आस्तियां	Fixed Assets	10.17	9.82
अन्य आस्तियां	Other Assets	303.54	186.85
कुल	Total	9110.10	6664.63
पूंजीगत परिसंपत्तियां	Capital Commitments	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	Other Contingent Liabilities	-	-
आय	Income		
अर्जित आय	Income Earned	653.65	574.91
अन्य आय	Other Income	1011.16	977.64
कुल	Total	1664.81	1552.55
व्यय	Expenditure		
विस्तारित ब्याज	Interest expended	184.88	80.51
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	676.78	658.87
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	Provisions & contingencies	730.19	782.76
कुल	Total	1591.85	1522.14
लाभ	Profit	72.96	30.41

**बी-5. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18)**  
 संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध

**ए) अनुषंगियां**

- i) बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
- ii) बॉब फाइनेंसिएल सोल्यूशन लिमिटेड (पूर्व में बॉब कार्ड्स लि.)
- iii) नैनीताल बैंक लिमिटेड
- iv) बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड
- v) बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
- vi) बैंक ऑफ बड़ौदा (केनिया) लिमिटेड
- vii) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड
- viii) बैंक ऑफ बड़ौदा (गयाना) आईएनसी.
- ix) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
- x) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
- xi) बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (यूगांडा) लिमिटेड  
बैंक ऑफ बड़ौदा यूगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)
- xii) बॉब ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद व टोबेगो) लि.
- xiii) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि.
- xiv) बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.
- xv) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.
- xvi) बॉब (यू.के) लिमिटेड

**(बी) सहयोगी इकाइयां**

- i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
- ii) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- iii) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- iv) बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि.
- v) इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड
- vi) बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कं. प्रा. लि.

**(सी) संयुक्त उद्यम**

- i) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
- ii) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
- iii) इंडिया इंफ्राडेब्ट लि.

**(डी) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक**
**B-5 Related Party Disclosures (AS-18)**

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

**(a) Subsidiaries**

- (i) BOB Capital Markets Limited
- (ii) BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB Cards Ltd.)
- (iii) The Nainital Bank Limited
- (iv) Baroda Global Shared Services Ltd
- (v) Baroda Sun Technologies Ltd.
- (vi) Bank of Baroda (Kenya) Limited
- (vii) Bank of Baroda (Uganda) Limited
- (viii) Bank of Baroda (Guyana) Inc.
- (ix) Bank of Baroda (UK) Limited
- (x) Bank of Baroda (Tanzania) Limited
- (xi) Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)
- (xii) Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd.
- (xiii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
- (xiv) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
- (xv) Bank of Baroda (Botswana) Limited
- (xvi) BOB (UK) Ltd

**(b) Associates**

- (i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
- (ii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
- (iii) Baroda Gujarat Gramin Bank
- (iv) Baroda Pioneer Asset Management Company Limited
- (v) Indo Zambia Bank Limited
- (vi) Baroda Pioneer Trustee Company Private Limited

**(c) Joint Ventures**

- (i) India First Life Insurance Company Limited
- (ii) India International Bank (Malaysia) Bhd.
- (iii) India Infradebt Limited

**(d) Key Management Personnel**

क्र. सं. S. NO	नाम NAME	पदनाम DESIGNATION	पारिश्रमिक REMUNERATION	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री पी. एस. जयकुमार Shri P. S. Jayakumar	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	31,51,937	30,78,225/-
2	श्री मयंक मेहता Shri Mayank Mehta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	30,20,936	26,20,322/-
3.	श्री अशोक कुमार गर्ग Shri Ashok Kumar Garg	कार्यपालक निदेशक (16.08.2016 से) Executive Director	28,24,124	16,01,143/-
4.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता Smt. Papia Sengupta	कार्यपालक निदेशक (01.01.2017 से) Executive Director (w.e.f 01.01.2017)	27,81,170	6,04,537/-
5.	श्री भुवनचंद्र बी. जोशी Shri Bhuwanchandra B Joshi	कार्यपालक निदेशक (31.12.2016 से) Executive Director ( up to 31.12.2016)	0.00	21,65,205/-

लेखों पर टिप्पणियों के आरबीआई के परिपत्र के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक, बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक होते हैं.

आईसीएआई द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस) - 18 के पैरा 9 के मद्देनजर अनुषंगियों एवं सहायक (एएस) बैंकों से संबंधित लेन-देनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस) - 18 के पैरा 9 में उल्लेख है, जिसमें अन्य सरकार नियंत्रित उद्यमों से संबंधित लेन-देनों से संबंधित प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गयी है. अन्य उद्यमों हेतु, सभी संव्यवहार यथा मियादी जमा, उसपर ब्याज आदि सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए हैं, अतः प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

Keeping in line with para 9 of the (AS) -18 Related Party Disclosures issued by ICAI of The transactions with the Subsidiaries and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS) -18 Related Party Disclosures issued by ICAI, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to transactions with other related state controlled enterprises. For other enterprises, no disclosure has been made as all the transactions are done in the ordinary course of business such as Fixed Deposits, interest thereon etc.



बी-6. एएस-20 प्रति शेयर आय

B-6 AS-20 Earning per Share

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	Net profit after tax (₹ in Crores)	(2431.81)	1383.14
शेयरों की संख्या (वेटेड)	Number of Equity Shares (weighted)	2308835715	2304159598
प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन	Basic & diluted earnings per Equity share	(10.53)	6.00
प्रति शेयर अंकित कीमत	Nominal value per Equity share	₹ 2.00	₹ 2.00

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर की संख्या	No. of Equity Share beginning of the year	2304159598	2304159598
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Addition during the Year	341356534	0.00
वर्ष की समाप्ति पर इक्विटी शेयर की संख्या	No. of Equity Share at the end of year	2645516132	2304159598
इक्विटी शेयर का भारित औसत	Weighted Average of Equity Share	2308835715	2304159598

बी-7. (एएस-22) आय पर करों का लेखांकन

B-7 AS-22 Accounting for Taxes on Income

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी आय पर करों का लेखांकन पर एएस 22 की आवश्यकताओं को पूरा किया है तथा तदनुसार आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यांकन @ 34.608% अर्थात् वित्त बिल 2017 में किए गए प्रावधानों के अनुरूप किया है. 31 मार्च 2018 को आस्थगित कर देयता का निवल शेष ₹ 6333.06 करोड़ है जिसमें निम्नलिखित का समावेश है

The Bank has complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and has accordingly revalued assets and liabilities @ 34.608% i.e. the rate as per enacted Finance Bill 2017. The net balance of deferred tax Asset as on 31<sup>st</sup> March 2018 amounting to ₹ 6333.06 Crores consists of the following:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
		आस्ति Asset	देयता Liability	आस्ति Asset	देयता Liability
ए. देशीय	A. DOMESTIC				
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	--	55.57	--	103.64
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत कटौती	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961		1937.20	--	1770.86
परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	Depreciation on HTM Securities		97.07	--	96.14
विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित (वसूल न की गयी)	Foreign Currency Translation Reserve(Unrealized)		55.35	--	121.93
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	Interest accrued but not due		937.21	--	--
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(ए)(आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि	Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act	3.77		1.87	--
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	307.03		313.88	--
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	8097.03		5093.81	--
विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित (वसूल की गयी)	Foreign Currency Translation Reserve (realized)	69.08		66.92	--
<b>कुल</b>	<b>Total:</b>	<b>8476.91</b>	<b>3082.40</b>	<b>5476.48</b>	<b>2092.57</b>
निवल आस्थगित कर आस्तियां/ (देयताएं) (ए)	<b>Net Deferred Tax Assets /(Liability) (A)</b>		<b>5394.51</b>		<b>3383.91</b>
बी. वैश्विक	B. GLOBAL				
स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यहास एवं आयकर अधिनियम के तहत मूल्यहास के बीच का अंतर.	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	--	55.57	--	103.64
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती.	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961		1937.20	--	1770.86

एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	Depreciation on HTM Securities	97.07	--	96.14
विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित (वसूल न की गयी)	Foreign Currency Translation Reserve (Unrealized)	55.35	--	121.93
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	Interest accrued but not due	937.21		--
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(ए)(आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि	Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act	3.77	1.87	
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment	307.03	313.88	--
संदिग्ध ऋणों एवं आग्रियों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	9035.58	6030.65	--
विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	69.08	66.92	--
<b>कुल:</b>	<b>Total:</b>	<b>9415.46</b>	<b>3082.40</b>	<b>6413.32</b>
<b>निवल आस्थगित कर आस्तियां/ (देयताएं) (ए)</b>	<b>Net Deferred Tax Assets /(Liability) (A)</b>		<b>6333.06</b>	<b>4320.75</b>

**बी-8. एएस-24 परिचालन बंद करना**

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन की सुसंगतता हेतु सामरिक पहल के रूप में जो कि भारत सरकार के निर्देशों अनुसार भी है, बैंक ने कई स्थानों पर परिचालन बंद करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने किंगडम ऑफ बहरीन, बहमास व रिपब्लिक ऑफ साऊथ अफ्रिका में अपने परिचालन को बंद करना शुरू कर दिया है। इन क्षेत्रों में बंद करने का काम एडवांस स्टेज में है। प्रबंधन की राय में बंदी में उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं एवं वित्तीय विवरणियों में उल्लिखित राशि उनकी प्राप्य राशि से कम नहीं है। बैंक के कारोबार पर इन क्षेत्रों में परिचालन बंद करने का कोई प्रभाव नहीं होगा।

**बी-9. एएस-28 आस्तियों का अनर्जक बनना**

लेखा मानक-28 "आस्तियों का इंपेयरमेंट" के खंड 5 से खंड 13 - के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है।

**बी-10. एएस-29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां**

**बी-10.1 देयताओं के लिए प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)**

**B-8 AS-24 Discontinuing operations**

As a part of strategic initiatives for rationalization of International Operations, which is also in consonance with the Government of India directives, the Bank has decided to exit from certain geographies. During the year 2017-18, the Bank has initiated closure of its operations in the Kingdom of Bahrain, Bahamas and Republic of South Africa. The closure of these territories is at an advance stage. In the opinion of the Management, adequate provisions have been made in the books and the amounts stated in the financial statements are not less than at their realizable values. The impact of closure of operations in these territories on the business of the Bank, is not material.

**B-9 AS-28 Impairment of Assets**

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of AS 28 Impairment of Assets, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

**B-10 AS-29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**
**B-10.1 Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others)**

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विधिक मामले/आकस्मिकताएं	Legal Cases/Contingencies	Current Year	Previous Year
1 अप्रैल 2017 को शेष	Balance as on 1 <sup>st</sup> April 2017	40.19	33.65
वर्ष के दौरान प्रावधान	Provided/ Adjustment during the year	1.66	6.54
31 मार्च 2018 को शेष	Balance as on 31 <sup>st</sup> March 2018	41.85	40.19
आउटफ्लो/अनिश्चितताओं का समय	Timing of outflow/ uncertainties	निपटान/क्रिस्टलाइजेशन का आउटफ्लो Outflow on settlement crystallization	

बैंक की पॉलिसी के अनुसार ऐसे ऋणों हेतु जिन्हें दावों के रूप में स्वीकार नहीं किया है, उनके लिए प्रावधान किया गया है।

As per the policy of the Bank, provision for the claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

**बी-10.2 आकस्मिक देयताएं**

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 की क्र.सं.(I) से (VI) में उद्धृत ऐसी देयताएं क्रमशः मांगी गयी राशि, संविदा देयता शर्तें सम्बद्ध पार्टियों की मांग अदालत के निर्णय, पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा पर निर्भर करती हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

**B-10.2 Contingent Liabilities**

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases



सी. लेखों पर अन्य टिप्पणियां

सी-1. बहियों का मिलान एवं समाधान

अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों में नाम एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु 31.03.2018 तक कर लिया गया है. इसमें उचित समाधान का कार्य प्रगति पर है.

सी-2. पूंजीगत आरक्षित निधि

पूंजीगत आरक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल है.

सी-3. निवेश

सी-3.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने “बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)” श्रेणी में निवेश के एक भाग को “परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)” श्रेणी में अंतरित कर दिया है. ₹ 5.27 करोड़ (गत वर्ष ₹ 12.38 करोड़) के परिणामी मूल्यहास को लाभ एवं हानि लेखों में प्रभारित कर दिया गया है.

सी-3.2 एफसीएनआर (बी) आरबीआई के साथ स्वैप

भारतीय रिजर्व बैंक ने नयी एफसीएनआर (बी) जमाराशियां जो किसी भी अनुमत मुद्रा में संग्रहित की गयी हो उन्हें तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि के लिए यूएस डॉलर-रुपए में रियायती दरों पर बदलने की शुरुआत की है. इस विंडो के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी अनुमत मुद्रा में एकत्र की गयी एफसीएनआर (बी) जमा राशियों के लिए बैंकों को स्वैप की रियायत दर का प्रस्ताव किया है.

बैंक ने संग्रहित यूएस डॉलर 1710 मिलियन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संगामी अवधि के लिए स्वैप किया. चूंकि आरबीआई के साथ स्वैप वर्तमान 3.5% प्रतिशत तत्समय प्रवर्तमान दर 8% पर किया गया. इसके परिणाम स्वरूप प्रथम वर्ष और परिपक्वता तारीख पर लाभ प्रतिकूल हो सकता है. इस निहित प्रतिकूलता से बचाव एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार हमने स्वैप प्वाइंट्स के अमोर्टाइजेशन की पद्धति को स्वैप की पूरी अवधि के दौरान करने का निर्णय लिया है.

C. Other Notes to Accounts

C-1 Balancing of Books and Reconciliation

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2018, the reconciliation of which is in progress.

C-2 Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank’s Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries.

C-3 Investments

C-3.1 In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Investment from “Available for Sale (AFS)” category to “Held to Maturity (HTM)” category and from HTM to AFS category. The resultant depreciation of ₹ 5.27 Crores (previous year ₹12.38 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

C-3.2 FCNR (B) Swap with RBI

RBI introduced US Dollar-Rupee concessional swap window for fresh FCNR (B), funds mobilized in any permitted currency for a minimum tenor of three years and above. In this window RBI offered a concessional rate of Swaps to banks only for fresh FCNR (B) deposits mobilized in any of the permitted currencies.

Bank has swapped USD 1,710 Million mobilized with RBI for the corresponding tenor. As the swaps done with RBI were at 3.5% as against the prevailing rate of around 8% there would have been a distortion in profits on the first year as well as on maturity date. To avoid this inherent distortion, and as prescribed by RBI, we have adopted the method of amortization of swap points to even out expenses throughout the tenor of swaps.

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछले वर्ष Previous Year
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	100.86	928.93
जोड़ें: अवधि के दौरान अमोर्टाईज्ड / Add: Amortized during the period	27.84	245.78
घटाएं: परिपक्वता पर वापस / Less: Reversed on maturity	20.40	1,073.85
<b>कुल Total</b>	<b>108.30</b>	<b>100.86</b>

सी-3.3 'परिपक्वता पर धारित' श्रेणी में ₹ 251.61 करोड़ निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ एवं हानि खाते में अंतरित किया गया है तथा अपर्याप्त लाभ के कारण शून्य राशि पूंजीगत आरक्षित निधि में अंतरित की गयी.

C-3.3 Profit on sale of investment held under “Held to Maturity” category amounting to ₹ 251.61 crores has been transferred to Profit & Loss Account and NIL amount transfer to Capital Reserve due to inadequate profits.

**सी-4 करों के लिए प्रावधान**

सी-4.1 करों हेतु प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है।

सी-4.2 "अन्य आस्तियां" शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी अग्रिम कर अदायगी / स्रोत पर कर की कटौती राशि ₹ 2007.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2857.69 करोड़) है, जिसमें विवादास्पद कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा भुगतान की गयी / विभाग द्वारा समायोजित राशि ₹ 1704.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2405.95 करोड़) शामिल है। आयकर की विवादास्पद मांगों के लिए न्यायिक निर्णयों और / या कानूनी परामर्श अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये परिवर्तन / मनाही बनाये रखने लायक नहीं है।

**सी-5. परिसर**

सी-5.1 बैंक की कुल ₹ 23.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 23.86 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है।

सी-5.2 परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन ₹ 178.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 113.41 करोड़) की संपत्तियां शामिल हैं।

**सी-6** बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफएसएल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी।

बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफएसएल की संपूर्ण आस्तियां एवं देयताएं उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरूप एक गोइंग कंसर्न/बिक्री के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा को स्थानांतरित कर दिए गए। चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफएसएल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफएसएल को बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

निदेशक मंडल द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मैसर्स बॉब फिसकल सर्विसेस लि. के समामेलन को बैंक की दिनांक 28.01.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और बॉम्बे उच्चन्यायालय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल समामेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए प्रबंधन को प्राधिकृत किया। यह मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है।

**सी-7** संपत्ति संयंत्र व उपकरण पर लेखांकन मानक-10 (संशोधित) के अनुसार अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर वर्ष के लिए ₹ 359 करोड़ के मूल्यहास को वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया है। तदनुसार, वर्ष हेतु अचल आस्तियों पर मूल्यहास ₹ 359 करोड़ से अधिक है एवं इस वर्ष के लिए हानि भी इसी सीमा तक उच्च है।

**C-4 Provision for Taxes**

C-4.1 Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

C-4.2 Tax paid in advance/tax deducted at source appearing under "other Assets" amounting to ₹ 2007.25 (Previous year ₹ 2857.69 Crores) is inclusive of ₹ 1704.80 Crores (previous year ₹ 2405.95 crores) which represents amount adjusted by the department / paid by the bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands, as in the bank's view, duly supported by counsels opinion and/or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the assessing officer are not sustainable

**C-5 Premises**

C-5.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 23.86 Crores (Previous Year ₹ 23.86 Crores).

C-5.2 Premises include assets under construction amounting to ₹ 178.10 Crores (Previous Year ₹ 113.41 Crores).

**C-6** BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (BOB), had passed a special resolution for voluntary winding up of the Company on 24.09.1990 and the Liquidator was appointed for the same.

BOBFSL had entered into an agreement with BOB pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the Company could not be liquidated due to pending legal cases, a decision to merge BOBFSL with BOB was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30<sup>th</sup> March 2007.

The Board of Directors of BOB has approved the merger of BOBFSL with BOB in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized the Management to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the Bombay High Court. The matter is still pending before the judiciary.

**C-7** Pursuant to the Accounting Standard-10 (revised) on Property Plant & Equipment depreciation of ₹359 crores for the year on revalued portion of fixed assets has been transferred during the year from the Revaluation Reserve to Revenue Reserve. Accordingly, the depreciation on fixed assets for the year is higher by ₹359 crores and the loss for the year is also higher to that extent.



- सी-8.** आल इंडिया यूनियन ऑफ वर्कमैन के साथ सदस्य बैंक के रूप में भारतीय बैंक संघ द्वारा किया गया 11वाँ द्विपक्षीय समझौता दिनांक 31 अक्टूबर 2017 को समाप्त हो गया। वेतनमान संसोधन समझौतों के लंबित निष्पादन के अनुसार, 1 नवंबर 2017 से लागू होगा जिसके लिए वर्ष के दौरान ₹ 100.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान किया गया है।
- सी-9** बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक (आयएनडी-एएस) के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) ने डीबीआर.बीपी.बीसी. नं.76/21.07.0001/ 2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 द्वारा रोडमैप निर्धारित किया है एवं बैंकों को इस संबंध में हुई प्रगति सहित आईएनडी-एएस कार्यान्वयन हेतु रणनीति का प्रकटन करने की आवश्यकता है। तदनुसार बैंक ने आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन में सहायता हेतु एक कंसल्टेंट नियुक्त किया है। बैंक ने हुई प्रगति के पर्यवेक्षण हेतु एक स्टीयरिंग समिति बनाई है तथा लेखापरीक्षा समिति को समय-समय पर इसकी सूचना की जाती है। कथित परिपत्र द्वारा निर्धारित आवश्यकतानुसार बैंक ने 30 जून, 2017 को समाप्त अवधि हेतु भा.रि.बैं. को प्रारूप आईएनडी-एएस वित्तीय विवरणी प्रस्तुत कर दी है। 05-04-2018 को भा.रि.बैं. द्वारा जारी 'विकास व नियामक नीतियों की विवरणी' अनुसार आईएनडी-एएस का कार्यान्वयन एक वर्ष से आस्थगित कर दिया गया है। (यथा पूर्व में 01-04-18 से 01-04-2019)।
- सी-10** आरबीआई के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 64/21.04.048/2016-17 दि. 18 अप्रैल 2017 बैंक ने अर्थव्यवस्था के दबावग्रस्त श्रेणी के मानक अग्रिमों के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 142.34 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
- सी-11** बासेल III पूंजी विनियमनों पर भा.रि.बैं. परिपत्र क्रमांक डीबीओडी.एन.बी. पी.बी.सी. 1 / 21.06.201 / 2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के साथ पठित पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश और चलनिधि मानक संशोधन पर भा.रि.बैं. परिपत्र सं. 80 / 21.06.201 / 2014-15 दि. 31 मार्च, 2015 के अनुसार बैंको को बासेल III फ्रेमवर्क के तहत लिवरेज अनुपात व चलनिधि कवरेज अनुपात सहित लागू पिलर 3 प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। ये विवरण हमारी वेबसाइट "www.bankofbaroda.com" पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन प्रकटीकरणों को लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं किया गया है।
- सी-12** वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित / पुनःसमूहीकृत किया गया है।
- C-8** The 11<sup>th</sup> Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All India Unions of Workmen expired on 31<sup>st</sup> October 2017. In accordance with the pending execution of agreement for wage revision, to be effective from 1<sup>st</sup> November 2017, a provision of ₹100.00 crores (previous year NIL) has been made during the year.
- C-9** The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR.BPBC. No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11<sup>th</sup> February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks need to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. In terms of the requirement stipulated vide said circular, the Bank has submitted proforma Ind-AS financial statements to the RBI for the period ended 30<sup>th</sup> June, 2017. As per the 'Statement of Development and Regulatory Policies' issued by the RBI on 05.04.2018, the implementation of Ind AS is deferred by one year (i.e. earlier from 01.04.2018 to 01.04.2019).
- C-10** In compliance with the RBI circular No.DBR.No.BP. BC.64/21.04.048/2016-17 dated April 18, 2017, bank has made an additional provision ₹.142.34 Crores for the year ended March 31, 2018, in respect of standard advances to stressed sectors of the economy.
- C-11** RBI Circular DBOD.NO.BPBC.1/21.06.201/2015-16 dated July 01, 2015 on Basel III Capital Regulations read together with RBI circular no DBR.NO.BPBC. 80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standards Amendments requires banks to make applicable Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel- III framework. These details are being made available on our website "www.bankofbaroda.com". These disclosures have not been subjected to audit by the auditors.
- C-12** Figures of previous year have been regrouped/rearranged wherever necessary, so as to make them comparable with those of the current period.



**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण-पत्र**
**Statement of Cash Flow for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018**

(₹ in 000's)

	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31 <sup>st</sup> March 2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31 <sup>st</sup> March 2017
<b>ए. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :</b>	<b>A. Cash flow from operating activities:</b>	
<b>कर से पूर्व निवल लाभ</b>	<b>(2790,74,31)</b>	<b>2472,69,67</b>
<b>निम्नलिखित के लिए समायोजन :</b>	<b>Adjustments for:</b>	
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	863,07,79	511,34,91
निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	768,19,72	29,31,39
बूटे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	14211,71,96	7679,79,00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(369,01,81)	776,58,32
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	185,40,24	16,68,55
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) (निवल)	(69,59,40)	(77,98,77)
गौण ऋणों पर ब्याज हेतु भुगतान/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	1187,38,39	1130,73,39
अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया)	(133,38,34)	(51,47,92)
<b>पूर्ण योग</b>	<b>13853,04,24</b>	<b>12487,68,54</b>
<b>निम्नलिखित के लिए समायोजन :</b>	<b>Adjustments for:</b>	
निवेशों में (वृद्धि) /कमी	(34027,95,93)	(9187,88,22)
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(58384,32,78)	(7168,83,28)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी	(6211,70,79)	(1258,80,26)
उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)	32402,28,21	(3792,73,52)
जमा-राशियों में वृद्धि / (कमी)	(10360,35,05)	27637,30,07
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	431,80,69	-29363899
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड की निवल राशि)	1209,37,50	1413,51,71
<b>परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी (ए)</b>	<b>(61087,83,91)</b>	<b>17193,86,05</b>
	<b>Net cash from operating activities (A)</b>	



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31 <sup>st</sup> March 2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31 <sup>st</sup> March 2017
<b>बी. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह</b>	<b>B. Cash flow from investing activities:</b>		
अचल आस्तियों की खरीद / अंतरण	Purchase/ Transfer in of fixed assets	(574,56,04)	(731,94,16)
अचल आस्तियों की बिक्री / अंतरण	Sales/ Transfer out of fixed assets	172,05,76	275,87,37
व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(294,22,88)	(21,45,03)
अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/ others	133,38,34	51,47,92
<b>निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी (बी)</b>	<b>Net cash used in investing activities (B)</b>	<b>(563,34,82)</b>	<b>(426,03,90)</b>
<b>सी. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :</b>	<b>C. Cash flow from financing activities:</b>		
शेयर पूँजी	Share Capital	68,27,13	0
शेयर प्रीमियम	Share premium	5306,72,87	0
गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	(441,75,02)	932,47,50
लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश	Dividend paid including dividend tax	332,78,78	-
गैर जमानती गौण बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured subordinated bonds	(1187,38,39)	(1130,73,39)
<b>वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी (सी)</b>	<b>Net cash from financing activities (C)</b>	<b>4078,65,37</b>	<b>(198,25,89)</b>
<b>नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (ए)+(बी)+(सी)</b>	<b>Net increase in cash &amp; cash equivalents (A) + (B) + (C)</b>	<b>(57572,53,36)</b>	<b>16569,56,26</b>
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	150469,91,25	133900,34,99
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	92897,37,89	150469,91,25
<b>टिप्पणी:</b>	<b>Notes:</b>		
1. नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंक के पास बैलेन्स और मांग एवं अल्प सूचना पर धन समाविष्ट है.	1. Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
2. नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	2. <b>Components of Cash &amp; Cash Equivalents</b>	As on 31 <sup>st</sup> March 2018	As on 31 <sup>st</sup> March 2017
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं बैलेन्स	Cash & Balance with RBI	226996398	227802133
बैंकों के पास बैलेन्स और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	701977391	1276896992
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>928973789</b>	<b>1504699125</b>